

Jamna Auto Industries Ltd.

September 28, 2024

To, To,

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
DalalStreet, Mumbai- 400001
Maharashtra

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051, Maharashtra

BSE Code: 520051 NSE Code: JAMNAAUTO

Subject – Newspaper Advertisement- Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement with respect to Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 published in Business Standard (all) and Jansatta (Delhi and Chandigarh) dated September 28, 2024.

Kindly take the above information on records.

Thanking you,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera Company Secretary& Head-Legal

YAMUNA NAGAR | MALANPUR | CHENNAI | JAMSHEDPUR | PANTNAGAR | HOSUR | PUNE

IT aims for sky after Accenture's Q4 results

Nifty IT index ends 0.4% higher over previous close

New Delhi, 27 September

lobal firm Accenture's fourth quarter results prove that the worst is behind for the Indian information technology (IT) sector, said analysts on Friday. While the pace and the broad-

ness of recovery is debatable, they said Accenture's results and revenue growth guidance for the next financial year (FY25) reduce downside risks for Indian IT companies. "While a strong recovery in dis-

cretionary demand may take a few quarters, it is unlikely to worsen. We expect revenue growth for India's largecap IT companies to improve in financial year 2025-26 (FY26), registering a growth of around 7.9 per cent year-on-year (Y-o-Y) as against FY25's estimated growth of 3.6 per cent Y-o-Y," said analysts at Nomura.


They gave a 'buy' rating for Infosys and Wipro in largecaps and the same for eClerx Services in midcaps. Accenture on Thursday reported a revenue of \$16.41 billion for the June-August quarter of FY24, up 5 per cent Y-o-Y in constant currency terms. The growth was in the upper end of its 2-6 per cent guidance band.

Consulting revenue was up 3 per cent Y-o-Y, while that for managed services grew 7 per cent Y-o-Y (both in CC terms). Among verticals, financial services contracted 2 per cent Y-o-Y and health care and public services expanded 11 per cent to lead Q4 revenue growth.

Other verticals that reported revenue growth are products (6 per cent), communication, media and technology (5 per cent), and resources (3 per cent).

Accenture's adjusted earnings before interest and taxes (ebit) mar- on the National Stock Exchange gin was 15 per cent, up 10 basis points Y-o-Y. New bookings were at \$0.15

NIFTY IT SCORECARD



Sep 26,'24 Sep 27,'24 Compiled by BS Research Bureau: Source: NSE

— Nifty IT — Nifty 50

billion for the quarter, up 21 per cent Y-o-Y, with an overall bookto-bill ratio of 1.23x. As demand has not changed much,

Accenture's management cautiously revised its FY25 revenue growth guidance upwards to

3-6 per cent in constant currency terms. The guidance includes inorganic contribution of slightly more than 3 per cent and positive foreign exchange impact of 1.5 per cent on reported US dollar revenue.

Analysts view Accenture's September-November quarter (Q1 FY25) guidance of 2-6 per cent growth as a steady start to the new financial year. They believe the overall FY25 revenue growth guidance upgrade points to a stable demand environment amid the prevailing macro uncertainties.

"Improvement in consulting is particularly positive for Indian IT Services as it signals recovery in discretionary spends. We expect a sustainable strong demand environment to drive healthy earnings growth over the next three years," said Nuvama Institutional Equities.

At the bourses on Friday, the Nifty IT index advanced 2.8 per cent (NSE) in the intraday trade, led by Coforge and Infosys (up 3.9 per cent

each), Tech M (3.5 per cent), Mphasis (3.4 per cent), Wipro and LTIMindtree (3.1 per cent each), Persistent Systems (2.9 per cent), HCLTech (2.5 per cent), LTTS (2.3 per cent), and Tata Consultancy Services (1.9 per cent) in the intraday deals. All these stocks ended up to 1.4 per cent higher on the NSE. By comparison, the NSE Nifty 50 closed 37 points (0.154 per cent) lower at 26,179 level.

Gen-AI boost

A feature of Accenture's Q4 results was its gains in generative artificial intelligence (Gen-AI). The company clocked \$3 billion worth of deal bookings in the technology in FY24, of which \$1 billion in agreements were booked in O4.

According to Accenture's management, Gen-AI will drive growth in the next decade. The company plans to increase its data and AI workforce to 80,000 by FY26 (from 57,000 at present) and increase training hours. "The management expects IT budgets to provide better clarity on demand in January-February 2025. Deal wins will be a key enabler of differentiated growth for Indian IT similar to the current financial year," said analysts at Kotak Institutional Equities.

The brokerage believes there are not enough large deals in the market to satisfy all players.

Accumulate gold through SIP if portfolio allocation below 10%

Gold, which closed at ₹75.447 per 10 gram in the domestic market on Friday (and is trading at ₹2,689.6 per ounce on the Comex), is up 29.4 per cent over the past year. Experts are of the view that with fundamentals remaining supportive, the yellow metal could climb further over the next 6-12 months.

Rate cuts a key driver

The recent 50 basis-points (bps) rate cut by the United States Federal Reserve (US Fed) has provided further impetus to the yellow metal. Gold has a negative correlation with real interest rates. "Hereafter, the decline in interest rates should be larger than the decline in inflation, which should be supportive for gold prices. As real interest rates decline, the opportunity cost of holding gold comes down and more investors move into it," says Chirag Mehta, chief investment officer, Quantum Mutual Fund.

The frequency of rate cuts

by the US Fed may increase over the next 6-12 months, pushing the price of the yellow metal further up.

Geopolitical tensions – the Russia-Ukraine war and the West Asia conflict - show no signs of abating. "In such an environment, investors seek refuge in this safe-haven asset," says Shashank Pal, chief business officer, Prabhudas Lilladher Wealth Management.

Central banks have been

Returns (%) ■ Gold ■ Silver

GOLD HAS OUTPACED SILVER

OVER THE PAST DECADE

diversifying their reserves away from the US dollar and into gold. "Most major economies have been increasing their gold reserves in recent years. China, one of the top consumers of gold, paused its purchases in May. If the People's Bank of China resumes purchases, that will be positive for the price of gold," says Deveya Gaglani, senior research analyst-commodities, Axis Securities.

The significant cut in import duty on gold in India in late July has been a shot in the arm for domestic demand. According to the World Gold Council's latest report, "Anecdotal reports suggest the duty reduction was followed by strong buying interest from jewellers consumers.

With all these drivers still in place, gold's price is likely to increase. "With the growing likelihood of an additional 50 bps Fed rate cut, gold's price

may rise by 4-5 per cent in the next 6-8 months," says Gaglani. He expects the domestic price to touch ₹80,000 per 10 gram, and the price on the Comex to touch \$2,850 per ounce.

Strong dollar index could impede rise

The yellow metal may struggle if interest-rate cuts in the US are not significant, and the US economy remains stronger than expected. "A strengthening dollar index can put pressure on gold prices, as the two are inversely correlated. An improved economic scenario in the US, indicated by positive data such as non-farm payroll data, GDP growth, and consumer confidence, can reduce the demand for gold," says

According to Mehta, while the long-term outlook for gold remains positive, there could be volatility in the short term.

Enter with a long-term perspective

Retail investors should allocate 10-15 per cent of their portfolios to gold, using instruments like gold exchange-traded funds (ETFs) and gold fund of funds (FoFs). "A 10-15 per cent allocation to gold in portfolios reduces risk without compromising on potential returns," says Mehta. After the recent run-up, lump-sum investment should be avoided. "Over the long term, you should invest in gold systematically. This provides an opportunity to invest at lower levels during periods underperformance,"

Should you prepay your home loan or invest the extra cash?

Above one-year returns are in CAGR.

The decision to prepay a home loan or invest in financial instruments is a dilemma many homeowners face. Making a choice depends on various factors. Here are a few to consider:

vour home loan interest rate with potential investment

Tax implications: Compare tax deductions available on home loan interest versus tax

Readfull report here: mybs.in/2dZ3EW1

Interest comparison: Compare | implications on returns. Risk tolerance: Prepaying a loan offers guaranteed returns in the form of interest savings. Investments, especially in equity, carry market risks. Financial goals: Align your

term financial objectives. Job security and income stability: In uncertain economic times, reducing debt might provide more peace of mind. Age and life stage: Younger

decision with short- and long-

individuals might benefit more from long-term investments. Loan tenure remaining: Prepayment in the early years

Source: IBIA: Compiled by BS Research

of a loan saves more interest than in later years.

Emergency fund: Ensure vou have adequate emergency savings before considering prepayment or

Future credit needs:

investments

Maintaining a loan account in good standing can be beneficial for future credit requirements.

COMPILED BY: AYUSH MISHRA



एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988G0I008409

Notice Inviting Request for Selection (RfS) RfS No: SJVN/CC-Delhi/REIA/2024/FDRE-4

RIS NO: SJVN/CC-DeIn/IREIA/20/24/FURE-4

Date: 28.09.2024

SJVN Limited has been designated as a Renewable Energy Implementing Agency (REIA) vide Office Memorandum F. No. 283/33/2020-GRID SOLAR dated 24.04.2023 issued by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt of India. SJVN Limited hereby invites ONLINE bids from the eligible bidders for Request for Selection (RIS) for "Selection of RE Power Developers for Supply of 6000 MWh (1500 MW x 4 Hours) Assured Peak Power from ISTS-connected Renewable Energy (RE) Power Projects with Energy Storage System (ESS) anywhere in India under Tariff-Based Competitive Bidding". The Request for Selection (RfS) Document shall be published shortly and the same will be available for download from the websites www.sivn.nic.in www.eprocure.gov.in and the e-tendering Portal https://www.bharatelectronictender.com. The Bid is to be submitted ONLINE on the e-tendering Portal https://www.bharat-electronictender.com. The prospective bidders are requested to remain updated through above mentioned websites for any clarification or notification concerned with this RfS including the publishing of RfS Documents, as no further information will be published in respect Dy. General Manager (C&P/REIA) 6th Floor, Tower1, NBCC Office Complex

East Kidwai Nagar New Delhi-110023. Ph.- 011-61901906/61901953 Our Shared Vision: 25000 MW by 2030; 50000 MW by 2040



U.P. State Road Transport Corporation Parivahan Bhavan, Tehri Kothi, 6 M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)

e-TENDER NOTICE

U.P. State Road Transport Corporation (U.P.S.R.T.C.) is inviting e-tenders from INDIAN BANK ASSOCIATION's (IBA) empanelled security printing presses, having multi-colour offset printing machine and online numbering with computerized checking facility for printing and supply of FAMILY PASS PADS. Prescribed tender forms containing all relevant details, terms and condition can be downloaded from website of Govt. e-portal etender.up.nic.in


	Name of Items	Availability & e-submission of e-Tender on e-portal	Opening of e-Tender document
ĺ	THE PRINTING & SUPPLY	w.e.f. 03.10.2024 to	02.11.2024
	OF FAMILY PASS PADS USE IN UPSRTC	02.11.2024 up to 15:00 Hrs.	at 16:00 Hrs
1			

Detailed Bill of quantity, eligibility for participating in tender, other terms and conditions of the tender and calendar/timing of the tender may be seen on Govt. e-portal **etender.up.nic.in.** Please do visit etender.up.nic.in from time to time before last date of

submission of tender for any possible amendment/corrigendum/addendum.

For any query/clarification regarding submission of e-tender vendors may call on following helpline numbers of NIC:

(1) 0522-2286808 (2) 0522-2286809 (3) 0522-4130303 (4) 0522-2298813 (5) 09415115329 Finance Controller Finance Controller



INOTIOE III			00p 20, 2024	
TATA Power-DDL invites tenders as per following details:				
Tender Enquiry No. Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001723/24-25 RC for Installation, testing and commissioning of Smart DT meter with accessories in Tata Power-DDL.	1.03 Crs/ 2,58,000	30.09.2024	21.10.2024;1500 Hrs/ 21.10.2024;1530 Hrs	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001724/24-25 AMC for Battery and Chargers in Tata Power- DDL Grids for a period of	96.59 Lac/ 2,42,000	30.09.2024	21.10.2024;1600 Hrs/ 21.10.2024;1630 Hrs	

Three Years							
CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENTION							
Tender Enquiry No. Work Description	Previou Publish Date	ned of B	sed Due Date & Time id Submission/ Date ne of opening of bids				
TPDDL/ENGG/ENQ/200001703/24-25 Empanelment of Advertising Agency for Media Buying Services	ing Agency 05.09.20		10.2024 at 1700 Hrs/ 10.2024 at 1730 Hrs				
Complete tender and corrigendum document is available on our website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents							

Contracts - 011-66112222

VIP INDUSTRIES LIMITED Regd. office: DGP House, 5th Floor, 88 - C, Old Prabhadevi Road, Mumbai 400 025. Maharashtra

CIN: L25200MH1968PLC013914; TEL: + 91 (022) 66539000;

FAX: + 91 (022) 66539089 E-mail: investor-help@vipbags.com Web: www.vipindustries.co.in **NOTICE OF POSTAL BALLOT** Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 (**"Act"**), read together with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any

tatutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and othe applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, read with the General Circular Nos.14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 9/2023 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any for the time being in force, as amended from time to time and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), that the resolutions set-out below are proposed to be passed by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"). Accordingly, the Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only

		Type of Resolutio				
1	Appointment of Ms. Payal Kothari (DIN: 09148432) as Non-Executive, Independent Director of the Company, with effect from August 30, 2024 to August 29, 2029	Special Resolution				

Executive, Non-Independent Director-Chairman, of the Compan on attaining the age of 75 years on November 2, 2024

Continuation of Mr. Dilip G. Piramal (DIN: 00032012) as Non- | Special Resolution

Pursuant to the MCA Circular, the Company has on September 27, 2024, sent to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)/Link Intime India Private Limited ("RTA"), as of September 20, 2024 ("Cut-off Date), the Notice of Postal Ballot dated September 26, 2024 together with ar Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act vide email through Nationa Securities Depositories Limited ("NSDL"). The Members who have not yet updated thei email addresses are requested to verify/update their e-mail address and mobile number with their respective Depository Participants in case shares are held in demat mode and in case of shares are held in physical mode then provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAF (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor-help@vipbags.com. The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company a ww.vipindustries.co.in, BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Śtock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com The results of postal ballot would also be uploaded as mentioned above. Details of Postal Ballot Schedule

Sr. No.	Particulars Particulars	Schedule
1	Date of Completion of dispatch of postal ballot notice	Friday, September 27, 2024
2	Date and time of commencement of remote e-voting	From 9.00 a.m. (IST) on Monday, September 30, 2024
3	Date and time of end of remote e-voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, October 29, 2024,
4	Results of the Postal Ballot	On or before Wednesday, October 30, 2024

Members are informed that:

Place: Mumbai

Date: September 28, 2024

a) Members can vote only through remote e-voting facility provided by NSDL as no physical ballot form is being dispatched or will be accepted by the Company. M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as

Scrutinizer for conducting remote e-voting process in accordance with the law and in In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000. f) The results of postal ballot will be announced within 2 (Two) working days from the conclusion of the e-voting and shall be intimated to BSE and NSE.

For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED Ashitosh Sheth Company Secretary & Head-Lega

ACS 25997

STATE BANK OF INDIA Premises & Estate Department, L.H.O. Jaipur

ENGAGEMENT OF PRINCIPAL PROJECT ARCHITECT CUM PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT

State Bank of India invites applications from Bonafide, resourceful Architect Consultant firm/individual having minimum 7 years' experience (as on 31.08.2024)

in construction of Residencial/ Commercial/Institutional buildings for the prequalification of Architectural/Consultancy firms for following two projects:

1. The proposed construction of multistorey residential complex at banks own plot at sector 3, Vidhhyadhar nagar

2. The proposed construction of G + 3 building at banks own plot at Bhopalganj Bhilwara.

For detailed terms and conditions please visit our banks website www.sbi.co.in under Procurement news. Separate Applications for both the projects completed in all respect should reach us on or before 19.10.2024 upto 3 pm. SBI reserves its right to accept any or reject any or all offers without assigning any reason thereof.

S/D Assistant General Manager (Premises & Estate)



एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड **SJVN Green Energy Limited** (A Wholly Owned Subsidiary of SJVN Limited) CIN: U40100HP2022GOI009237

E-Tender No.: SGEL/CHQ/CONTRACTS/LAND-Rajasthan/2024 Online bids (E-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) are nvited on behalf of SJVN Green Energy Limited for "Outright

Purchase/ 'Lease for 28 Years' of Land up to 2000 Acres in the vicinity of 765/400/220 kV Bikaner-IV Pooling Station, Rajasthan for setting up Solar Power Project(s) upto cumulative capacity For details, visit websites: https://www.bharat-electronictender.com,

www.eprocure.gov.in and www.sjvn.nic.in. Last date for bid submission is 18.10.2024 (14:00 Hrs). Amendment(s), if any, shall be issued on websites only

DGM (Contracts)
SJVN Green Energy Limited
Corporate Headquarters, Shakti Sadan, Shanan, Shimla (H.P) Email- contracts.sgel@sjvn.nic.ir

NIT/Enquiry No: Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s). EST24O0060 Date:18.09.2024- Procurement of submersible pumps to STPP, Jaipur, Mancherial, Telangana - 15.10.2024 - 12.01 PM

EST24O0061 Date:23.09.2024 - Procurement of multi functional combustion catalyst(Thermact) and addition of procured multi functional combustion catalyst(Thermact) with coal with Firms own manpower and equipment in two 600MW boilers, at Singareni Thermal Power Plant, Village:Pegadapall Mandal:Jaipur, District: Mancherial, State: Telangana - 15.10.2024 - 12:01 PM

EST24O0062 Date:23.09.2024- Procurement of rubber coated wooden ball (250mm diameter) for a release valves installed in raw water supply scheme and circulating water system at STPP, Jaipu

E032400079 - Refilling of Medical Gas Cylinders for use at SCCL Hospitals on rate contract basis for a period of 2 years - 30.09.2024 - 17:00 Hrs.

E132400215 - Procurement of SME explosives, LDC explosives and accessories for use in OB blasting at all the OCPs of SCCL for a period of 2 years - 01.10.2024 - 12:00.

E152400199 - Procurement of E02 HP Centrifugal Pump with Mechanical Accessories and valves for use at ALP Mine - 10.10.2024 - 17:00 Hrs.

E42400203 - Procurement of Three sizes of Basic Contractions and the second sec

E0424O0203 - Procurement of Three sizes of Resin Capsules on RC basis for a period of Two years fo all areas of SCCL against Open enquiry through Critical mode Tender cum E-Reverse auction -10.10.2024 - 17:00 Hrs. -10.10.2024 - 17:00 Hrs. E162400205 - Retro fitment of 200KW Gear Box & Fluid Coupling with H450K CST unit with necessar accessories on specific make basis for 3A1 & 3B1 conveyors at JVR EPC CHP, Sathupally, KGM Area

-10.10.2024 - 17:00 Hrs. E092400191 - AMC for Air conditioners at- corporate area for a period of three years
-11.10.2024 - 17:00 Hrs.
E042400204 - Procurement of HDPE Pipes on RC basis for one year period - 11.10.2024 - 17:00 Hrs.

E012400204 - Procurentent of https://en.bush.com/state/person/state/person/state/person-perso

Visaknapatriani to Sivio St. -14.10.2024 - <u>17:00 Hrs.</u>

#17.00 Tris.
##17.00 Tris.
##1 PR/2024-25/ADVT/STPP/MP/42 DIPR R.O. No.: 448-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2024-25



Place: New Delhi

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: investor.relations@jaispring.com, Website: www.jaispring.com STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

Year ended **Particulars** 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 31.03.2024 Total Income from operations 64,014.54 57,526.25 2,42,677.27 7,796.73 7,796.73 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items) 6.459.16 6 275 92 28 326 27 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items) 6,275.92 28,326.27 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items) 4.638.46 4,559.26 20,541.45 Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 4,626.90 20,478.34 Equity Share Capital 3,988.02 3.988.02 3,986.93 3,988.02 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 86,330.35 Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.) 5 15

1.14 1.14 1.37 1.16 5.14 Notes The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as the Group) for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings

held on September 27, 2024 2. Information of standalone un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2024 in terms of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure

			,		
	Requirements) Regulations, 2015 is as under:				(Rs. in Lakhs)
S.	Particulars	Quarter ended			Year ended
No.	Failiculais	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
1	Revenue from operations	54,232.10	62,008.77	55,936.22	2,36,095.48
2	Profit before tax	6,745.76	8,698.14	6,201.83	32,427.92
3	Total Comprehensive income for the period	4,990.51	6,499.63	4,614.93	24,932.53

3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com

> For Jamna Auto Industries Ltd P. S. Jauhai Managing Director & CEO DIN 00744518

IT aims for sky after Accenture's Q4 results

Nifty IT index ends 0.4% higher over previous close

New Delhi, 27 September

lobal firm Accenture's fourth quarter results prove that the worst is behind for the Indian information technology (IT) sector, said analysts on Friday. While the pace and the broad-

ness of recovery is debatable, they said Accenture's results and revenue growth guidance for the next financial year (FY25) reduce downside risks for Indian IT companies. "While a strong recovery in dis-

cretionary demand may take a few quarters, it is unlikely to worsen. We expect revenue growth for India's largecap IT companies to improve in financial year 2025-26 (FY26), registering a growth of around 7.9 per cent year-on-year (Y-o-Y) as against FY25's estimated growth of 3.6 per cent Y-o-Y," said analysts at Nomura.


They gave a 'buy' rating for Infosys and Wipro in largecaps and the same for eClerx Services in midcaps. Accenture on Thursday reported a revenue of \$16.41 billion for the June-August quarter of FY24, up 5 per cent Y-o-Y in constant currency terms. The growth was in the upper end of its 2-6 per cent guidance band.

Consulting revenue was up 3 per cent Y-o-Y, while that for managed services grew 7 per cent Y-o-Y (both in CC terms). Among verticals, financial services contracted 2 per cent Y-o-Y and health care and public services expanded 11 per cent to lead Q4 revenue growth.

Other verticals that reported revenue growth are products (6 per cent), communication, media and technology (5 per cent), and resources (3 per cent).

Accenture's adjusted earnings before interest and taxes (ebit) mar- on the National Stock Exchange gin was 15 per cent, up 10 basis points Y-o-Y. New bookings were at \$0.15

NIFTY IT SCORECARD



Note: CMP is current market price Compiled by BS Research Bureau: Source: NSE

billion for the quarter, up 21 per cent Y-o-Y, with an overall bookto-bill ratio of 1.23x. As demand has not changed much, Accenture's management cautiously revised its FY25 revenue

growth guidance upwards to 3-6 per cent in constant currency terms. The guidance includes inorganic contribution of slightly more than 3 per cent and positive foreign exchange impact of 1.5 per cent on reported US dollar revenue.

Analysts view Accenture's September-November quarter (Q1 FY25) guidance of 2-6 per cent growth as a steady start to the new financial year. They believe the overall FY25 revenue growth guidance upgrade points to a stable demand environment amid the prevailing macro uncertainties.

"Improvement in consulting is particularly positive for Indian IT Services as it signals recovery in discretionary spends. We expect a sustainable strong demand environment to drive healthy earnings growth over the next three years," said Nuvama Institutional Equities.

At the bourses on Friday, the Nifty IT index advanced 2.8 per cent (NSE) in the intraday trade, led by Coforge and Infosys (up 3.9 per cent — Nifty IT — Nifty 50 Sep 26,'24 Sep 27,'24

each), Tech M (3.5 per cent), Mphasis (3.4 per cent), Wipro and LTIMindtree (3.1 per cent each), Persistent Systems (2.9 per cent), HCLTech (2.5 per cent), LTTS (2.3 per cent), and Tata Consultancy Services (1.9 per cent) in the intraday deals. All these stocks ended up to 1.4 per cent higher on the NSE. By comparison, the NSE Nifty 50 closed 37 points (0.154 per cent) lower at 26,179 level.

Gen-AI boost

A feature of Accenture's Q4 results was its gains in generative artificial intelligence (Gen-AI). The company clocked \$3 billion worth of deal bookings in the technology in FY24, of which \$1 billion in agreements were booked in O4.

According to Accenture's management, Gen-AI will drive growth in the next decade. The company plans to increase its data and AI workforce to 80,000 by FY26 (from 57,000 at present) and increase training hours. "The management expects IT budgets to provide better clarity on demand in January-February 2025. Deal wins will be a key enabler of differentiated growth for Indian IT similar to the current financial year," said analysts at Kotak Institutional Equities.

The brokerage believes there are not enough large deals in the market to satisfy all players.

Accumulate gold through SIP if portfolio allocation below 10%

Gold, which closed at ₹75.447 per 10 gram in the domestic market on Friday (and is trading at ₹2,689.6 per ounce on the Comex), is up 29.4 per cent over the past year. Experts are of the view that with fundamentals remaining supportive, the yellow metal could climb further over the next 6-12 months.

Rate cuts a key driver

The recent 50 basis-points (bps) rate cut by the United States Federal Reserve (US Fed) has provided further impetus to the yellow metal. Gold has a negative correlation with real interest rates. "Hereafter, the decline in interest rates should be larger than the decline in inflation, which should be supportive for gold prices. As real interest rates decline, the opportunity cost of holding gold comes down and more investors move into it," says Chirag Mehta, chief investment officer, Quantum Mutual Fund.

The frequency of rate cuts

by the US Fed may increase over the next 6-12 months, pushing the price of the yellow metal further up.

Geopolitical tensions – the Russia-Ukraine war and the West Asia conflict - show no signs of abating. "In such an environment, investors seek refuge in this safe-haven asset," says Shashank Pal, chief business officer, Prabhudas Lilladher Wealth Management.

Central banks have been

Returns (%) ■ Gold ■ Silver

GOLD HAS OUTPACED SILVER

OVER THE PAST DECADE

diversifying their reserves away from the US dollar and into gold. "Most major economies have been increasing their gold reserves in recent years. China, one of the top consumers of gold, paused its purchases in May. If the People's Bank of China resumes purchases, that will be positive for the price of gold," says Deveya Gaglani, senior research analyst-commodities, Axis Securities.

The significant cut in import duty on gold in India in late July has been a shot in the arm for domestic demand. According to the World Gold Council's latest report, "Anecdotal reports suggest the duty reduction was followed by strong buying interest from jewellers consumers.

With all these drivers still in place, gold's price is likely to increase. "With the growing likelihood of an additional 50 bps Fed rate cut, gold's price

may rise by 4-5 per cent in the next 6-8 months," says Gaglani. He expects the domestic price to touch ₹80,000 per 10 gram, and the price on the Comex to touch \$2,850 per ounce.

Strong dollar index could impede rise

The yellow metal may struggle if interest-rate cuts in the US are not significant, and the US economy remains stronger than expected. "A strengthening dollar index can put pressure on gold prices, as the two are inversely correlated. An improved economic scenario in the US, indicated by positive data such as non-farm payroll data, GDP growth, and consumer confidence, can reduce the demand for gold," says

According to Mehta, while the long-term outlook for gold remains positive, there could be volatility in the short term.

Enter with a long-term perspective

Retail investors should allocate 10-15 per cent of their portfolios to gold, using instruments like gold exchange-traded funds (ETFs) and gold fund of funds (FoFs). "A 10-15 per cent allocation to gold in portfolios reduces risk without compromising on potential returns," says Mehta. After the recent run-up, lump-sum investment should be avoided. "Over the long term, you should invest in gold systematically. This provides an opportunity to invest at lower levels during periods underperformance,"

Should you prepay your home loan or invest the extra cash?

Above one-year returns are in CAGR.

The decision to prepay a home loan or invest in financial instruments is a dilemma many homeowners face. Making a choice depends on various factors. Here are a few to consider:

vour home loan interest rate with potential investment

Tax implications: Compare tax deductions available on home loan interest versus tax

Readfull report here: mybs.in/2dZ3EW1

Interest comparison: Compare | implications on returns. Risk tolerance: Prepaying a loan offers guaranteed returns in the form of interest savings. Investments, especially in equity, carry market risks. Financial goals: Align your

term financial objectives. Job security and income stability: In uncertain economic times, reducing debt might provide more peace of mind. Age and life stage: Younger individuals might benefit more

from long-term investments. Loan tenure remaining: Prepayment in the early years

decision with short- and long-

Source: IBIA: Compiled by BS Research

of a loan saves more interest than in later years.

Emergency fund: Ensure vou have adequate emergency savings before considering prepayment or investments

Future credit needs:

Maintaining a loan account in good standing can be beneficial for future credit requirements.

COMPILED BY: AYUSH MISHRA



एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988G0I008409

Notice Inviting Request for Selection (RfS) RfS No: SJVN/CC-Delhi/REIA/2024/FDRE-4

RIS NO: SJVN/CC-DeIn/IREIA/20/24/FURE-4

Date: 28.09.2024

SJVN Limited has been designated as a Renewable Energy Implementing Agency (REIA) vide Office Memorandum F. No. 283/33/2020-GRID SOLAR dated 24.04.2023 issued by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt of India. SJVN Limited hereby invites ONLINE bids from the eligible bidders for Request for Selection (RIS) for "Selection of RE Power Developers for Supply of 6000 MWh (1500 MW x 4 Hours) Assured Peak Power from ISTS-connected Renewable Energy (RE) Power Projects with Energy Storage System (ESS) anywhere in India under Tariff-Based Competitive Bidding". The Request for Selection (RfS) Document shall be published shortly and the same will be available for download from the websites www.sivn.nic.in www.eprocure.gov.in and the e-tendering Portal https://www.bharatelectronictender.com. The Bid is to be submitted ONLINE on the e-tendering Portal https://www.bharat-electronictender.com. The prospective bidders are requested to remain updated through above mentioned websites for any clarification or notification concerned with this RfS including the publishing of RfS Documents, as no further information will be published in respect Dy. General Manager (C&P/REIA) 6th Floor, Tower1, NBCC Office Complex

East Kidwai Nagar New Delhi-110023. Ph.- 011-61901906/61901953 Our Shared Vision: 25000 MW by 2030; 50000 MW by 2040



U.P. State Road Transport Corporation

Pariyahan Bhayan, Tehri Kothi, 6 M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)

e-TENDER NOTICE

U.P. State Road Transport Corporation (U.P.S.R.T.C.) is inviting e-tenders from INDIAN BANK ASSOCIATION's (IBA) empanelled security printing presses, having multi-colour offset printing machine and online numbering with computerized checking facility for printing and supply of FAMILY PASS PADS. Prescribed tender forms containing all relevant details, terms and condition can be downloaded from website of Govt. e-portal etender.up.nic.in

Name of Items	Availability & e-submission of e-Tender on e-portal	Opening of e-Tender document
THE PRINTING & SUPPLY OF FAMILY PASS PADS USE IN UPSRTC	w.e.f. 03.10.2024 to 02.11.2024 up to 15:00 Hrs.	02.11.2024 at 16:00 Hrs

Detailed Bill of quantity, eligibility for participating in tender, other terms and conditions of the tender and calendar/timing of the tender may be seen on Govt. e-portal **etender.up.nic.in.** Please do visit etender.up.nic.in from time to time before last date o

submission of tender for any possible amendment/corrigendum/addendum.
For any query/clarification regarding submission of e-tender vendors may call on following helpline numbers of NIC:-

(1) 0522-2286808 (2) 0522-2286809 (3) 0522-4130303 (4) 0522-2298813 (5) 09415115329 Finance Controller Finance Controller



NO HOL III	VIIII10 II		00p 20, 2024	
TATA Power-DDL invites tenders as per following details:				
Tender Enquiry No. Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001723/24-25 RC for Installation, testing and commissioning of Smart DT meter with accessories in Tata Power-DDL.	1.03 Crs/ 2,58,000	30.09.2024	21.10.2024;1500 Hrs/ 21.10.2024;1530 Hrs	
TPDDL/ENGG/ENQ/200001724/24-25 AMC for Battery and Chargers in Tata Power- DDL Grids for a period of	96.59 Lac/ 2,42,000	30.09.2024	21.10.2024;1600 Hrs/ 21.10.2024;1630 Hrs	

Tillee reals							
CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENTION							
Tender Enquiry No. Work Description	Previou Publis Date	hed of E	sed Due Date & Time lid Submission/ Date ne of opening of bids				
TPDDL/ENGG/ENQ/200001703/24-25 Empanelment of Advertising Agency for Media Buying Services	05.09.2	11111	10.2024 at 1700 Hrs/ 10.2024 at 1730 Hrs				
Complete tender and corrigendum document is available on our							

vebsite www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone →Tender / Corrigendum Documents Contracts - 011-66112222

VIP INDUSTRIES LIMITED Regd. office: DGP House, 5th Floor, 88 - C, Old Prabhadevi Road,

Web: www.vipindustries.co.in **NOTICE OF POSTAL BALLOT** Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 (**"Act"**), read together with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any tatutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and othe applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, read with the General Circular Nos.14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 9/2023 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board

Mumbai 400 025. Maharashtra

CIN: L25200MH1968PLC013914; TEL: + 91 (022) 66539000;

FAX: + 91 (022) 66539089 E-mail: investor-help@vipbags.com

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any for the time being in force, as amended from time to time and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), that the resolutions set-out below are proposed to be passed by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"). Accordingly, the

WIOTID	nomboro di o roquosio di o provido di on docont di ocont						
Sr.No.	Particulars	Type of Resolution					
	Appointment of Ms. Payal Kothari (DIN: 09148432) as Non-Executive, Independent Director of the Company, with effect from August 30, 2024 to August 29, 2029	Special Resolution					
2	Continuation of Mr. Dilip G. Piramal (DIN: 00032012) as Non-	Special Resolution					

Executive, Non-Independent Director-Chairman, of the Compan

Pursuant to the MCA Circular, the Company has on September 27, 2024, sent to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)/Link Intime India Private Limited ("RTA"), as of September 20, 2024 ("Cut-off Date), the Notice of Postal Ballot dated September 26, 2024 together with ar Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act vide email through Nationa Securities Depositories Limited ("NSDL"). The Members who have not yet updated thei email addresses are requested to verify/update their e-mail address and mobile number with their respective Depository Participants in case shares are held in demat mode and in case of shares are held in physical mode then provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAF self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor-help@vipbags.com. The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company a ww.vipindustries.co.in, BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com The results of postal ballot would also be uploaded as mentioned above. Details of Postal Ballot Schedule

Dotaile							
Sr. No.	Particulars Particulars	Schedule					
1	Date of Completion of dispatch of postal ballot notice	Friday, September 27, 2024					
2	Date and time of commencement of remote e-voting	From 9.00 a.m. (IST) on Monday, September 30, 2024					
3	Date and time of end of remote e-voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, October 29, 2024,					
4	Results of the Postal Ballot	On or before Wednesday, October 30, 2024					

Members are informed that:

a) Members can vote only through remote e-voting facility provided by NSDL as no physical ballot form is being dispatched or will be accepted by the Company. M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as

Scrutinizer for conducting remote e-voting process in accordance with the law and in fair and transparent manner. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000. d) The results of postal ballot will be announced within 2 (Two) working days from the conclusion of the e-voting and shall be intimated to BSE and NSE.

> For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED Ashitosh Sheth

Place: Mumbai Company Secretary & Head-Lega Date: September 28, 2024 ACS 25997

STATE BANK OF INDIA Premises & Estate Department, L.H.O. Jaipur

ENGAGEMENT OF PRINCIPAL PROJECT ARCHITECT CUM PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT

State Bank of India invites applications from Bonafide, resourceful Architect Consultant firm/individual having minimum 7 years' experience (as on 31.08.2024)

in construction of Residencial/ Commercial/Institutional buildings for the prequalification of Architectural/Consultancy firms for following two projects:

1. The proposed construction of multistorey residential complex at banks own plot at sector 3, Vidhhyadhar nagar

2. The proposed construction of G + 3 building at banks own plot at Bhopalganj Bhilwara.

For detailed terms and conditions please visit our banks website www.sbi.co.in under Procurement news. Separate Applications for both the projects completed in all respect should reach us on or before 19.10.2024 upto 3 pm. SBI reserves its right to accept any or reject any or all offers without assigning any reason thereof.

S/D Assistant General Manager (Premises & Estate)



एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SJVN Green Energy Limited (A Wholly Owned Subsidiary of SJVN Limited) CIN: U40100HP2022GOI009237

E-Tender No.: SGEL/CHQ/CONTRACTS/LAND-Rajasthan/2024 Online bids (E-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) are

nvited on behalf of SJVN Green Energy Limited for "Outright Purchase/ 'Lease for 28 Years' of Land up to 2000 Acres in the vicinity of 765/400/220 kV Bikaner-IV Pooling Station, Rajasthan for setting up Solar Power Project(s) upto cumulative capacity For details, visit websites: https://www.bharat-electronictender.com,

www.eprocure.gov.in and www.sjvn.nic.in. Last date for bid submission is 18.10.2024 (14:00 Hrs). Amendment(s), if any, shall be issued on websites only

DGM (Contracts)
SJVN Green Energy Limited
Corporate Headquarters, Shakti Sadan, Shanan, Shimla (H.P) Email- contracts.sgel@sjvn.nic.ir

NIT/Enquiry No: Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s). EST24O0060 Date:18.09.2024- Procurement of submersible pumps to STPP, Jaipur, Mancherial, Telangana - 15.10.2024 - 12.01 PM

EST24O0061 Date:23.09.2024 - Procurement of multi functional combustion catalyst(Thermact) and addition of procured multi functional combustion catalyst(Thermact) with coal with Firms own manpower and equipment in two 600MW boilers, at Singareni Thermal Power Plant, Village:Pegadapall Mandal:Jaipur, District: Mancherial, State: Telangana - 15.10.2024 - 12:01 PM

EST24O0062 Date:23.09.2024- Procurement of rubber coated wooden ball (250mm diameter) for ai release valves installed in raw water supply scheme and circulating water system at STPP, Jaipun

E032400079 - Refilling of Medical Gas Cylinders for use at SCCL Hospitals on rate contract basis for a period of 2 years - 30.09.2024 - 17:00 Hrs.

E132400215 - Procurement of SME explosives, LDC explosives and accessories for use in OB blasting at all the OCPs of SCCL for a period of 2 years - 01.10.2024 - 12:00.

E152400199 - Procurement of E02 HP Centrifugal Pump with Mechanical Accessories and valves for use at ALP Mine - 10.10.2024 - 17:00 Hrs.

E42400203 - Procurement of Three sizes of Both Contract Contr

E0424O0203 - Procurement of Three sizes of Resin Capsules on RC basis for a period of Two years fo all areas of SCCL against Open enquiry through Critical mode Tender cum E-Reverse auction -10.10.2024 - 17:00 Hrs. -10.10.2024 - 17:00 Hrs. E162400205 - Retro fitment of 200KW Gear Box & Fluid Coupling with H450K CST unit with necessar accessories on specific make basis for 3A1 & 3B1 conveyors at JVR EPC CHP, Sathupally, KGM Area

-10.10.2024 - 17:00 Hrs.

E092400191 - AMC for Air conditioners at- corporate area for a period of three years - 11.10.2024 - 17:00 Hrs.
E042400204 - Procurement of HDPE Pipes on RC basis for one year period - 11.10.2024 - 17:00 Hrs. E012400204 - Procurentent of https://en.bush.com/state/person/state/person/state/person-perso

Visaknapatriani to Sivio St. -14.10.2024 - <u>17:00 Hrs.</u>

#17.00 Tris.
##17.00 Tris.
##1 PR/2024-25/ADVT/STPP/MP/42

DIPR R.O. No.: 448-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2024-25



Place: New Delhi

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: investor.relations@jaispring.com, Website : www.jaispring.com STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

					(Rs. in Lakhs)
<u>;</u>)	Particulars		Quarter ended		
о.	Faiticulais	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	Total Income from operations	55,713.65	64,014.54	57,526.25	2,42,677.27
	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	6,459.16	7,796.73	6,275.92	28,326.27
	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	6,459.16	7,796.73	6,275.92	28,326.27
	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	4,638.46	5,477.47	4,559.26	20,541.45
	Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period				
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,626.90	5,544.16	4,563.86	20,478.34
	Equity Share Capital	3,988.02	3,988.02	3,986.93	3,988.02
	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				86,330.35
	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.)				
	Basic:	1.16	1.38	1.14	5.15
	Diluted:	1 16	1.37	1 14	5 14

Notes The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as the Group) for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings

held on September 27, 2024 2. Information of standalone un-audited financial results for the guarter ended June 30, 2024 in terms of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure

F	Requirements) Regulations, 2015 is as under:				(Rs. in Lakhs)
S.	Particulars		Unaudited Audited Audi		Year ended
No.	r atticulat s	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
1	Revenue from operations	54,232.10	62,008.77	55,936.22	2,36,095.48
2	Profit before tax	6,745.76	8,698.14	6,201.83	32,427.92
3	Total Comprehensive income for the period	4,990.51	6,499.63	4,614.93	24,932.53

3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com

> For Jamna Auto Industries Ltd P. S. Jauhar Managing Director & CEO DIN 00744518

IT aims for sky after Accenture's Q4 results

Nifty IT index ends 0.4% higher over previous close

New Delhi, 27 September

lobal firm Accenture's fourth quarter results prove that the worst is behind for the Indian information technology (IT) sector, said analysts on Friday. While the pace and the broad-

ness of recovery is debatable, they said Accenture's results and revenue growth guidance for the next financial year (FY25) reduce downside risks for Indian IT companies. "While a strong recovery in dis-

cretionary demand may take a few quarters, it is unlikely to worsen. We expect revenue growth for India's largecap IT companies to improve in financial year 2025-26 (FY26), registering a growth of around 7.9 per cent year-on-year (Y-o-Y) as against FY25's estimated growth of 3.6 per cent Y-o-Y," said analysts at Nomura.


They gave a 'buy' rating for Infosys and Wipro in largecaps and the same for eClerx Services in midcaps. Accenture on Thursday reported a revenue of \$16.41 billion for the June-August quarter of FY24, up 5 per cent Y-o-Y in constant currency terms. The growth was in the upper end of its 2-6 per cent guidance band.

Consulting revenue was up 3 per cent Y-o-Y, while that for managed services grew 7 per cent Y-o-Y (both in CC terms). Among verticals, financial services contracted 2 per cent Y-o-Y and health care and public services expanded 11 per cent to lead Q4 revenue growth.

Other verticals that reported revenue growth are products (6 per cent), communication, media and technology (5 per cent), and resources (3 per cent).

Accenture's adjusted earnings before interest and taxes (ebit) mar- on the National Stock Exchange gin was 15 per cent, up 10 basis points Y-o-Y. New bookings were at \$0.15

NIFTY IT SCORECARD



billion for the quarter, up 21 per cent Y-o-Y, with an overall bookto-bill ratio of 1.23x. As demand has

not changed much, Accenture's management cautiously revised its FY25 revenue

growth guidance upwards to 3-6 per cent in constant currency terms. The guidance includes inorganic contribution of slightly more than 3 per cent and positive foreign exchange impact of 1.5 per cent on reported US dollar revenue.

Analysts view Accenture's September-November quarter (Q1 FY25) guidance of 2-6 per cent growth as a steady start to the new financial year. They believe the overall FY25 revenue growth guidance upgrade points to a stable demand environment amid the prevailing macro uncertainties.

"Improvement in consulting is particularly positive for Indian IT Services as it signals recovery in discretionary spends. We expect a sustainable strong demand environment to drive healthy earnings growth over the next three years," said Nuvama Institutional Equities.

At the bourses on Friday, the Nifty IT index advanced 2.8 per cent (NSE) in the intraday trade, led by Coforge and Infosys (up 3.9 per cent — Nifty IT — Nifty 50

Sep 26,'24 Sep 27,'24 Compiled by BS Research Bureau: Source: NSE

> each), Tech M (3.5 per cent), Mphasis (3.4 per cent), Wipro and LTIMindtree (3.1 per cent each), Persistent Systems (2.9 per cent), HCLTech (2.5 per cent), LTTS (2.3 per cent), and Tata Consultancy Services (1.9 per cent) in the intraday deals. All these stocks ended up to 1.4 per cent higher on the NSE. By comparison, the NSE Nifty 50 closed 37 points (0.154 per cent)

Gen-AI boost

lower at 26,179 level.

A feature of Accenture's Q4 results was its gains in generative artificial intelligence (Gen-AI). The company clocked \$3 billion worth of deal bookings in the technology in FY24, of which \$1 billion in agreements were booked in O4.

According to Accenture's management, Gen-AI will drive growth in the next decade. The company plans to increase its data and AI workforce to 80,000 by FY26 (from 57,000 at present) and increase training hours. "The management expects IT budgets to provide better clarity on demand in January-February 2025. Deal wins will be a key enabler of differentiated growth for Indian IT similar to the current financial year," said analysts at Kotak Institutional Equities.

The brokerage believes there are not enough large deals in the market to satisfy all players.

Accumulate gold through SIP if portfolio allocation below 10%

Gold, which closed at ₹75.447 per 10 gram in the domestic market on Friday (and is trading at ₹2,689.6 per ounce on the Comex), is up 29.4 per cent over the past year. Experts are of the view that with fundamentals remaining supportive, the yellow metal could climb further over the next 6-12 months.

Rate cuts a key driver

The recent 50 basis-points (bps) rate cut by the United States Federal Reserve (US Fed) has provided further impetus to the yellow metal. Gold has a negative correlation with real interest rates. "Hereafter, the decline in interest rates should be larger than the decline in inflation, which should be supportive for gold prices. As real interest rates decline, the opportunity cost of holding gold comes down and more investors move into it," says Chirag Mehta, chief investment officer, Quantum Mutual Fund.

The frequency of rate cuts

by the US Fed may increase over the next 6-12 months, pushing the price of the yellow metal further up.

Geopolitical tensions – the Russia-Ukraine war and the West Asia conflict - show no signs of abating. "In such an environment, investors seek refuge in this safe-haven asset," says Shashank Pal, chief business officer, Prabhudas Lilladher Wealth Management.

Central banks have been

Returns (%) ■ Gold ■ Silver

GOLD HAS OUTPACED SILVER

OVER THE PAST DECADE

diversifying their reserves away from the US dollar and into gold. "Most major economies have been increasing their gold reserves in recent years. China, one of the top consumers of gold, paused its purchases in May. If the People's Bank of China resumes purchases, that will be positive for the price of gold," says Deveya Gaglani, senior research analyst-commodities, Axis Securities.

The significant cut in import duty on gold in India in late July has been a shot in the arm for domestic demand. According to the World Gold Council's latest report, "Anecdotal reports suggest the duty reduction was followed by strong buying interest from jewellers consumers.

With all these drivers still in place, gold's price is likely to increase. "With the growing likelihood of an additional 50 bps Fed rate cut, gold's price

may rise by 4-5 per cent in the next 6-8 months," says Gaglani. He expects the domestic price to touch ₹80,000 per 10 gram, and the price on the Comex to touch \$2,850 per ounce.

Strong dollar index could impede rise

The yellow metal may struggle if interest-rate cuts in the US are not significant, and the US economy remains stronger than expected. "A strengthening dollar index can put pressure on gold prices, as the two are inversely correlated. An improved economic scenario in the US, indicated by positive data such as non-farm payroll data, GDP growth, and consumer confidence, can reduce the demand for gold," says

According to Mehta, while the long-term outlook for gold remains positive, there could be volatility in the short term.

Enter with a long-term perspective

Retail investors should allocate 10-15 per cent of their portfolios to gold, using instruments like gold exchange-traded funds (ETFs) and gold fund of funds (FoFs). "A 10-15 per cent allocation to gold in portfolios reduces risk without compromising on potential returns," says Mehta. After the recent run-up, lump-sum investment should be avoided. "Over the long term, you should invest in gold systematically. This provides an opportunity to invest at lower levels during periods underperformance,"

Should you prepay your home loan or invest the extra cash?

Above one-year returns are in CAGR.

The decision to prepay a home loan or invest in financial instruments is a dilemma many homeowners face. Making a choice depends on various factors. Here are a few to consider:

Interest comparison: Compare | implications on returns. vour home loan interest rate with potential investment

Tax implications: Compare tax deductions available on home loan interest versus tax

Readfull report here: mybs.in/2dZ3EW1

Risk tolerance: Prepaying a loan offers guaranteed returns in the form of interest savings. Investments, especially in equity, carry market risks. Financial goals: Align your

Loan tenure remaining:

decision with short- and longterm financial objectives. Job security and income stability: In uncertain economic times, reducing debt might provide more peace of mind. Age and life stage: Younger individuals might benefit more from long-term investments.

Prepayment in the early years

Source: IBIA: Compiled by BS Research

of a loan saves more interest than in later years. **Emergency fund:** Ensure

vou have adequate emergency savings before considering prepayment or investments

Future credit needs:

Maintaining a loan account in good standing can be beneficial for future credit requirements.

COMPILED BY: AYUSH MISHRA

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988GO1008409

Notice Inviting Request for Selection (RfS) RfS No: SJVN/CC-Delhi/REIA/2024/FDRE-4 RIS NO: SJVN/CC-DeIn/IREIA/20/24/FURE-4

Date: 28.09.2024

SJVN Limited has been designated as a Renewable Energy Implementing Agency (REIA) vide Office Memorandum F. No. 283/33/2020-GRID SOLAR dated 24.04.2023 issued by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Govt of India. SJVN Limited hereby invites ONLINE bids from the eligible bidders for Request for Selection (RIS) for "Selection of RE Power Developers for Supply of 6000 MWh (1500 MW x 4 Hours) Assured Peak Power from ISTS-connected Renewable Energy (RE) Power Projects with Energy Storage System (ESS) anywhere in India under Tariff-Based Competitive Bidding". The Request for Selection (RfS) Document shall be published shortly and the same will be available for download from the websites www.sivn.nic.in www.eprocure.gov.in and the e-tendering Portal https://www.bharatelectronictender.com. The Bid is to be submitted ONLINE on the e-tendering Portal https://www.bharat-electronictender.com. The prospective bidders are requested to remain updated through above mentioned websites for any clarification or notification concerned with this RfS including the publishing of RfS Documents, as no further information will be published in respect Dy. General Manager (C&P/REIA) 6th Floor, Tower1, NBCC Office Complex

East Kidwai Nagar New Delhi-110023. Ph.- 011-61901906/61901953 Our Shared Vision: 25000 MW by 2030; 50000 MW by 2040



U.P. State Road Transport Corporation

Parivahan Bhavan, Tehri Kothi, 6 M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)

e-TENDER NOTICE

U.P. State Road Transport Corporation (U.P.S.R.T.C.) is inviting e-tenders from INDIAN BANK ASSOCIATION's (IBA) empanelled security printing presses, having multi-colour offset printing machine and online numbering with computerized checking facility for printing and supply of FAMILY PASS PADS. Prescribed tender forms containing all relevant details, terms and condition can be downloaded from website of Govt. e-portal etender.up.nic.in

Name of Items	Availability & e-submission of e-Tender on e-portal	Opening of e-Tender document
THE PRINTING & SUPPLY OF FAMILY PASS PADS USE IN UPSRTC	w.e.f. 03.10.2024 to 02.11.2024 up to 15:00 Hrs.	02.11.2024 at 16:00 Hrs

Detailed Bill of quantity, eligibility for participating in tender, other terms and conditions of the tender and calendar/timing of the tender may be seen on Govt. e-portal **etender.up.nic.in.** Please do visit **etender.up.nic.in** from time to time before last date of

submission of tender for any possible amendment/corrigendum/addendum.

For any query/clarification regarding submission of e-tender vendors may call on following helpline numbers of NIC:

(1) 0522-2286808 (2) 0522-2286809 (3) 0522-4130303 (4) 0522-2298813 (5) 09415115329 Finance Controller Finance Controller



NO HOL III	VIIII10 II		00p 20, 2024
TATA Power-DDL invites tenders as pe			
Tender Enquiry No. Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids
TPDDL/ENGG/ENQ/200001723/24-25 RC for Installation, testing and commissioning of Smart DT meter with accessories in Tata Power-DDL.	1.03 Crs/ 2,58,000	30.09.2024	21.10.2024;1500 Hrs/ 21.10.2024;1530 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001724/24-25 AMC for Battery and Chargers in Tata Power- DDL Grids for a period of	96.59 Lac/ 2,42,000	30.09.2024	21.10.2024;1600 Hrs/ 21.10.2024;1630 Hrs

Tillee fears						
CORRIGENDUM / TEN	CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENTION					
Tender Enquiry No. Work Description	Previou Publisi Date	hed of B	sed Due Date & Time id Submission/ Date ne of opening of bids			
TPDDL/ENGG/ENQ/200001703/24-25 Empanelment of Advertising Agency for Media Buying Services	05.09.2	11/4	10.2024 at 1700 Hrs/ 10.2024 at 1730 Hrs			
Complete tender and corrigendum docume	ent is avail	nt is available on our				

website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone →Tender / Corrigendum Documents Contracts - 011-66112222

VIP INDUSTRIES LIMITED

Regd. office: DGP House, 5th Floor, 88 - C, Old Prabhadevi Road, Mumbai 400 025. Maharashtra CIN: L25200MH1968PLC013914; TEL: + 91 (022) 66539000; FAX: + 91 (022) 66539089 E-mail: investor-help@vipbags.com Web: www.vipindustries.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 (**"Act"**), read together with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any tatutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and othe applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, read with the General Circular Nos.14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 9/2023 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any for the time being in force, as amended from time to time and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), that the resolutions set-out below are proposed to be passed by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"). Accordingly, the

wemb	wernbers are requested to provide their assent or dissent through e-voting only.					
Sr.No.	Particulars	Type of Resolution				
	Appointment of Ms. Payal Kothari (DIN: 09148432) as Non-Executive, Independent Director of the Company, with effect from August 30, 2024 to August 29, 2029	Special Resolution				
2	Continuation of Mr. Dilin G. Piramal (DIN: 00032012) as Non-	Special Resolution				

Executive, Non-Independent Director-Chairman, of the Compan on attaining the age of 75 years on November 2, 2024

Pursuant to the MCA Circular, the Company has on September 27, 2024, sent to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)/Link Intime India Private Limited ("RTA"), as of September 20, 2024 ("Cut-off Date), the Notice of Postal Ballot dated September 26, 2024 together with ar Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act vide email through Nationa Securities Depositories Limited ("NSDL"). The Members who have not yet updated thei email addresses are requested to verify/update their e-mail address and mobile number with their respective Depository Participants in case shares are held in demat mode and in case of shares are held in physical mode then provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAF (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor-help@vipbags.com. The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company a ww.vipindustries.co.in, BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Śtock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com The results of postal ballot would also be uploaded as mentioned above. **Details of Postal Ballot Schedule**

Sr. No.	Particulars Particulars	Schedule					
1	Date of Completion of dispatch of postal ballot notice	Friday, September 27, 2024					
2	Date and time of commencement of remote e-voting	From 9.00 a.m. (IST) on Monday, September 30, 2024					
3	Date and time of end of remote e-voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, October 29, 2024,					
4	Results of the Postal Ballot	On or before Wednesday, October 30, 2024					

Members are informed that:

a) Members can vote only through remote e-voting facility provided by NSDL as no physical ballot form is being dispatched or will be accepted by the Company. M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting process in accordance with the law and in

 In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000.

d) The results of postal ballot will be announced within 2 (Two) working days from the conclusion of the e-voting and shall be intimated to BSE and NSE.

For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED Ashitosh Sheth

Place: Mumbai Company Secretary & Head-Lega Date: September 28, 2024 ACS 25997

STATE BANK OF INDIA

Premises & Estate Department, L.H.O. Jaipur

ENGAGEMENT OF PRINCIPAL PROJECT ARCHITECT CUM PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT

State Bank of India invites applications from Bonafide, resourceful Architect Consultant firm/individual having minimum 7 years' experience (as on 31.08.2024)

in construction of Residencial/ Commercial/Institutional buildings for the prequalification of Architectural/Consultancy firms for following two projects:

1. The proposed construction of multistorey residential complex at banks own plot at sector 3, Vidhhyadhar nagar

2. The proposed construction of G + 3 building at banks own plot at Bhopalganj Bhilwara.

For detailed terms and conditions please visit our banks website www.sbi.co.in under Procurement news. Separate Applications for both the projects completed in all respect should reach us on or before 19.10.2024 upto 3 pm. SBI reserves its right to accept any or reject any or all offers without assigning any reason thereof.

S/D Assistant General Manager (Premises & Estate)



एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड **SJVN Green Energy Limited** (A Wholly Owned Subsidiary of SJVN Limited) CIN: U40100HP2022GOI009237

E-Tender No.: SGEL/CHQ/CONTRACTS/LAND-Rajasthan/2024 Online bids (E-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) are nvited on behalf of SJVN Green Energy Limited for "Outright Purchase/ 'Lease for 28 Years' of Land up to 2000 Acres in the vicinity of 765/400/220 kV Bikaner-IV Pooling Station, Rajasthan

for setting up Solar Power Project(s) upto cumulative capacity For details, visit websites: https://www.bharat-electronictender.com, www.eprocure.gov.in and www.sjvn.nic.in. Last date for bid submission is 18.10.2024 (14:00 Hrs).

Amendment(s), if any, shall be issued on websites only DGM (Contracts)
SJVN Green Energy Limited
Corporate Headquarters, Shakti Sadan, Shanan, Shimla (H.P) Email- contracts.sgel@sjvn.nic.ir

NIT/Enquiry No: Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s). EST24O0060 Date:18.09.2024- Procurement of submersible pumps to STPP, Jaipur, Mancherial, Telangana - 15.10.2024 - 12.01 PM

EST24O0061 Date:23.09.2024 - Procurement of multi functional combustion catalyst(Thermact) and addition of procured multi functional combustion catalyst(Thermact) with coal with Firms own manpower and equipment in two 600MW boilers, at Singareni Thermal Power Plant, Village:Pegadapall Mandal:Jaipur, District: Mancherial, State: Telangana - 15.10.2024 - 12:01 PM

EST24O0062 Date:23.09.2024- Procurement of rubber coated wooden ball (250mm diameter) for ai release valves installed in raw water supply scheme and circulating water system at STPP, Jaipun

E032400079 - Refilling of Medical Gas Cylinders for use at SCCL Hospitals on rate contract basis for a period of 2 years - 30.09.2024 - 17:00 Hrs.

E132400215 - Procurement of SME explosives, LDC explosives and accessories for use in OB blasting at all the OCPs of SCCL for a period of 2 years - 01.10.2024 - 12:00.

E152400199 - Procurement of E02 HP Centrifugal Pump with Mechanical Accessories and valves for use at ALP Mine - 10.10.2024 - 17:00 Hrs.

E42400203 - Procurement of Three sizes of Both Contract Contr

E0424O0203 - Procurement of Three sizes of Resin Capsules on RC basis for a period of Two years fo all areas of SCCL against Open enquiry through Critical mode Tender cum E-Reverse auction -10.10.2024 - 17:00 Hrs. -10.10.2024 - 17:00 Hrs. E162400205 - Retro fitment of 200KW Gear Box & Fluid Coupling with H450K CST unit with necessar accessories on specific make basis for 3A1 & 3B1 conveyors at JVR EPC CHP, Sathupally, KGM Area

-10.10.2024 - 17:00 Hrs.

E092400191 - AMC for Air conditioners at- corporate area for a period of three years
-11.10.2024 - 17:00 Hrs.
E042400204 - Procurement of HDPE Pipes on RC basis for one year period - 11.10.2024 - 17:00 Hrs. E012400204 - Procurentent of https://en.bush.com/state/person/state/person/state/person-perso

Visaknapatriani to Sivio St. -14.10.2024 - <u>17:00 Hrs.</u>

#17.00 Tris.
##17.00 Tris.
##1 PR/2024-25/ADVT/STPP/MP/42 DIPR R.O. No.: 448-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2024-25



Place: New Delhi

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: investor.relations@jaispring.com, Website: www.jaispring.com STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

Year ended **Particulars** 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 31.03.2024 Total Income from operations 64,014.54 57,526.25 2,42,677.27 7,796.73 7,796.73 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items) 6.459.16 6 275 92 28 326 27 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items) 6,275.92 28,326.27 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items) 4.638.46 4,559.26 20,541.45 Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 4,626.90 20,478.34 Equity Share Capital 3,988.02 3.988.02 3,986.93 3,988.02 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 86,330.35 Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.) 1.14 1.14 5 15 1.37 1.16 5.14

Notes The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as the Group) for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings

2. Information of standalone un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2024 in terms of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure

IN.	equirements) Regulations, 2013 is as under.	(Rs. in Lal			
S.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
No.	r ai ilcuiai 3	Unaudited Audited Unaudited 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023	Audited 31.03.2024		
1	Revenue from operations	54,232.10	62,008.77	55,936.22	2,36,095.48
2	Profit before tax	6,745.76	8,698.14	6,201.83	32,427.92
3	Total Comprehensive income for the period	4,990.51	6,499.63	4,614.93	24,932.53

3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com

> For Jamna Auto Industries Ltd P. S. Jauhai Managing Director & CEO DIN 00744518

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एसेट रिकवरी ब्रांच, विशाखापत्तनम द्वार संख्या २६-१५-१५०, आंध्र बैंक बिल्डिंग चंगायराओपेटा, विशाखापत्तनम-५३०००१, ए.पी. फोनः 0891-2537792/82, मोबाइलः 9324517291. ई-मेलः ubin0817295@unionbankofindia.bank

> बिक्री के विषय में उधारकर्ता को सूचित करने के लिए नोटिस (30 दिन का नोटिस) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के नियम ६(२)/८(६) के अनुसार।

(1). मेसर्स डेक्कन इस्पात लिमिटेड (उधारकर्ता), रजि. कार्यालय 21, सरकार बाय लेन, सोनी हाउस कोलकाता–700007. (2). मेसर्स डेक्कन इस्पात लिमिटेड (उधारकर्ता), स्थानीय कार्यालय तीसरी मंजिल सत्य सूर्य कॉम्प्लेक्स, द्वारकानगर, विशाखापत्तनम (3) श्री अरिकिरेवुला नारायण मूर्ति (निदेशक), द्वार नंबर 4-46-1/2, मेन रोड, पेडा वाल्टेयर कॉलोनी, विशाखापत्तनम, (4) श्री अशोक कुमार जोशी (निदेशक), 73. डी ब्लॉक, बांगुर एवेन्यू कोलकाता. पश्चिम बंगाल. (5). श्री संजय दास (निदेशक) 139/2, प्रतिभा स्कूल, सब्बेवरम, विशाखापत्तनम, **(6), स्वर्गीय श्री चिरंजीवी लाल अग्रवाल (गारंटर)** के कानूनी उत्तराधिकारी, दरवाजा नंबर 4-69-27 लॉसन्स बे कॉलोनी, विशाखापत्तनम, (7) श्री कपिल सेवी (गारंटर), ए 393, संथा विहार, नई दिल्ली-110044 (8) मेसर्स टू वृड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (गारंटर), डी.नं. 9-19-56/3, दूसरी मंजिल, सीबीएम कंपाउंड, वीआईपी रोड, विशाखापत्तनम। (9). मेसर्स.डेक्कन वेनीर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, असकापल्ली गांव, सब्बावरम मंडल, विशाखापत्तनम। प्रिय महोदय/महोदया,

विषयः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक **ऑफ इंडिया** को देय राशि की वसूली के लिए मेसर्स डेक्कन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की बिक्री।

युनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सुरक्षित लेनदार है, ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 03.10.2017 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें आपसे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया। चूंकि आप निर्धारित अवधि के भीतर उक्त नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 के साथ पिठत अचल सुरक्षित आस्तियों का कब्जा ले लिया है। कब्जा नोटिस दिनांक 16.07.2018 है।

सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के बाद भी आपने बैंक को देय राशि का भूगतान नहीं किया है। इस प्रकार, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करके नीचे उल्लिखित संपत्ति को बेचना आवश्यक हो गया है। ई-नीलामी की तारीख और समय, संपत्ति के आरक्षित मूल्य और सेवा प्रदाता का विवरण, जिसके द्वारा ई-नीलामी आयोजित की जानी है, आपको अलग से सूचित किया जाएगा।

इसलिए, यदि आप बिक्री नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले बैंक को देय राशि का भूगतान ब्याज, लागत, शुल्क और बैंक द्वारा किए गए खर्चों के साथ करते हैं. तो संपत्ति की बिक्री के लिए कोई और कर्ज नहीं लिया जाएगा और आप अधिनियम की धारा 13 (बी) में निर्धारित अनुसार अपनी संपत्ति को छुड़ा सकते हैं।

संपत्ति की अनुसूचीः

तीसरी मंजिल पर शहरी वाणिज्यिक फ्लैट, लेवल-5, "सत्य सूर्या कॉम्प्लेक्स", टीएस नंबर 653 से 163 प्लॉट नंबर जेबा 264 ए विशाखापत्तनम, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, चांद स्वीट्स अपर अल्लीपुरम वार्ड द्वारकानगर, जीवीएमसी आरटीसी कॉम्प्लेक्स के पास विशाखापत्तनम 533016 (सेल डीड दस्तावेज संख्या 2271/2000, 2272/2000 और 2273/2000 दिनांक 26.12.2000 में निर्दिष्ट संपत्ति विवरण) बाउंडनेस उत्तर गायती प्रतिस्पर्धी अकादमी, दक्षिण सिक्स लास्ट कोंडोर और गायेन प्रतिस्पर्धी अकादमी के लिए खुला, पश्चिम आकाश के लिए खुला निर्देशांकः 17,725054, 83.306373

दिनांकः 18.09.2024 हस्ता/-अधिकृत अधिकारी युनियन बैंक ऑफ इंडिया। संपत्ति वसूली शाखा स्थानः विशाखापत्तनम

AXIS BANK खुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा) : एक्सिस हाउस, टावर-2, दूसरी मंजिल, 1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, यू.पी. एक्सिस बैंक लिभिटेड, तीसरी मंजिल, गिगाप्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई - 400708 ,पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने, एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण संख्या xxxxxxx2438 में सुरक्षित लेनदार श्री केवल कृष्णन और श्रीमती नील रैना द्वारा देय भविष्य के ब्याज और लागतों सहित 03.08.2024 तक बकाया रु. 34,51,956 / – (रुपये चौंतीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ छप्पन मात्र) की वसूली के लिए 16 अक्टूबर 2024 को **"जैसा है जहां है", " जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:

211/11/2/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/	act i littli olgani (ol			
ज्ञात भार (यदि कोई हो):	नहीं			
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	ए. 23,74,241 / — (रुपये तेईस लाख चौहत्तर हजार दो सौ इकतालिस मात्र)			
धरोहर जमा राशि (रुपये में)ः	रु. 2,37,424.10/— (रुपये दो लाख चौरासी मात्र)' एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में एवं दिल्ली में देय डीडी/पीओ के माध्यम से ।			
बोली वृद्धि राशिः	₹. 10,000/— (केवल दस हजार रुपये)			
ईएमडी के साथ बोलियां / निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः	14 अक्टूबर 2024 को अधिकतम सायं 05:00 बजे तक, एक्सिस हाउस, टावर–2, दूसरी मंजिल, 1–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा–201301, यू.पी. , श्री मुकेश सिंह को संबोधित।			
सार्वजनिक ई—नीलामी हेतु दिनांक, समय और स्थान :	16 अक्टूबर 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। इसके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा आदि सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज उपरोक्त विवरण के अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।			
अनुसूची-संपत्ति का विवरण				

डंडाहेडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में "**पंचसील स्क्वायर**" के नाम व शैली के अंतर्गत क्रॉसिंग रिपब्लिक नामक टाउनशिप में सी-3 पर निर्मित वाणिज्यिक स्थल में ,वाणिज्यिक दुकान संख्या 129 का प्रथम तल, जिसका सुपर एरिया 320 वर्ग फीट (लगभग 29.72 वर्ग मीटर) तथा कवर्ड एरिया 194 वर्ग फीट (लगभग 18.02 वर्ग मीटर) है, **पूर्वः** रोड-30 मीटर, **पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **उत्तरः** अन्य संपत्ति, **दक्षिणः** रोड-45 मीटर। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें।

https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। किसी अन्य सहायता के लिए इच्छुक बोलीदाता श्री मुकेश सिंह, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल संख्या 91.9873015430 से कार्यालय समय के दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दिनांक -28.09.2024, स्थान -नोएडा हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Harvana Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: investor.relations@jaispring.com, Website: www.jaispring.com STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

S.	Particulars		Quarter ended		Year ended
No.	Particulars	Unaudited 30.06.2024	Audited 31.03.2024	Unaudited 30.06.2023	Audited 31.03.2024
	Total Income from operations	55,713.65	64,014.54	57,526.25	2,42,677.27
	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	6,459.16	7,796.73	6,275.92	28,326.27
- 1	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	6,459.16	7,796.73	6,275.92	28,326.27
- 1	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	4,638.46	5,477.47	4,559.26	20,541.45
- 1	Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period	Comp. (40 Comp.)	5-00/01/04/0	045045555	2000 - 02-20-02-0
-	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,626.90	5,544.16	4,563.86	20,478.34
- 1	Equity Share Capital	3,988.02	3,988.02	3,986.93	3,988.02
-	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.0000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000	400000000000000000000000000000000000000	86,330.35
- 1	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.)				F-11/2000
	Basic	1.16	1.38	1.14	5.15
	Diluted:	1.16	1.37	1.14	5.14

Date : September 27, 2024

कहते हुए एक माँग सचना निर्गत की थी।

कर्जना वाद-कर्जना

Place: New Delhi

- The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as the Group). for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on September 27, 2024.
- Information of standalone un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2024 in terms of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure

H	equirements) Regulations, 2015 is as under:			(Rs. in Lakhs)		
S,	Destruit.	Quarter ended	Quarter ended			
lo.	Particulars		Unaudited 30.06.2023	Audited 31.03.2024		
	Revenue from operations Profit before tax Total Comprehensive income for the period	54,232.10 62,008.77 6,745.76 8,698.14 4,990.51 6,499.63	55,936.22 6,201.83 4,614.93	2,36,095.48 32,427.92 24,932.53		

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com.

> For Jamna Auto Industries Ltd P. S. Jauhar Managing Director & CEO DIN 00744518

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

टिप्रांटि (पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड) रिजस्टर्ड कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तिमलनाडु-600 002

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में उल्लिखित राशि का पनर्भगतान करने को कहते हुए एक अधिनियम की धारा 13(2) केतहत मांग सुचना जारी की थी। सम्बन्धित कर्जदार निर्धारित समय के भीतर नीचे वर्णित राशि का भुगतान करने में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा गारंटर को एवं जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सीजेएम अलवर द्वारा जारी इसके मुकदमा प्रतिभृतिकरण 58/24 आदेश दिनांक 01.02.2024 के माध्यम से सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा अनुसूचित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि लिए मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक के अध्यधीन होगा।

कब्जा सूचना (धारा 8(1) के तहत-अचल सम्पत्ति हेतू)

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम (शाखा का नाम)	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा करने की तिथि
1	 श्री राकेश कुमार मीना श्री राजेश कुमार श्री रामावतार श्रीमती संतरा देवी एल.नं.: SEBEROR0302987 शाखा: बहरोड़ 	गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या - 026, बुक नंबर -043, संकल्प संख्या - 01, गांव चिकानी, ग्राम पंचायत हटुंडी, पंचायत समिति - मुंडावर, जिला - अलवर (राजस्थान) का समस्त भाग, (क्षेत्रफल 130 वर्ग गज / 1178 वर्ग फीट) पर स्थित है, जिसमें सभी वर्तमान और भावी अधिरचनाएँ शामिल हैं। सीमाएं : पूर्व - सामुदायिक भवन, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - पट राम का घर, दक्षिण - आम रास्ता, मुंडावर के उप पंजीकरण जिले और अलवर (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	27-04-2023 तथा 234993	27-09-2024
तिथि	: 28.09.2024 स्थान	: अलवर अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास स्मार	ल फाइनेंस है	ंक लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट-15,6वीं मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूरानल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालयः नं.ए/९४/९५, प्रथम तल, शिव गौरी प्लाना आखिलया विकास योनना नोषपर -342001 अचल संपत्ति के लिए कब्जा-सचना

IndiaShelter

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत **इंडिया ग्रेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेग्रन लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए उधारकर्ताओ एवं सम्पत्ति के मालिकों / जमानती को भी उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के उल्लिखित राशि का भृगतान करने के लिए यहाँ निर्दिष्ट खातों के सम्मुख अंकित तिथियों को एक मांग नोटिस जारी किया। सम्पत्ति के मालिकों एवं अन्य द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, यहाँ निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निर्दिष्ट प्रत्येक खातों के सम्मुख अंकित तिथियों को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति/यों पर सांकेतिक कब्ज़ा कर लिया है। अब ,विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **इंडिया ग्रेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेग्रन लिमिटेड** को यहाँ निर्दिष्ट राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगी।

76-14104 ⁷ / -11000 44 51101	41013 / 444, 61041 (1 4) 1446-1	माण जूपणा पा ।।।।प, माण जूपणा	910011997
(सम्पत्ति के मालिकों) एवं ऋण	(निम्न से युक्त सम्पत्ति के सभी	की तिथि के अनुसार	आधिपत्य की
खाता संख्या	टुकड़े एवं अंश)	बनाया राशि	तिथि
अखे कंवर और लाधू सिंह, निवास स्थानः प्लॉट	एच नं.02,खसरा नंबर 1034 / 740, जगदंबा कॉलोनी,	नोटिस दिनांक 14.09.2023,	22.09.2024
नंबर 2 जगदंबा किराना स्टोर, जगदंबा श्रमिक बस्ती	नई दरबी कॉलोनी बासनी जोधपुर स्थित संपत्ति का	रु.755616 ∕ − (सात लाख पचपन हजार	
क पास, बासनी द्वितीय चरण, जोधपुर, 342001	संपर्ण टकडा और अंश। कल भूमि क्षेत्रफल 138.88	छट भी योजर आगे मात्र) 14 मितम्बर	
राजस्थान, इसके अलावा मकान नबर 02, खसरा नबर	वर्ग गज सीमाः- पूर्व -एच नं1, पश्चिम - एच	2023 तक देय, साथ में 15 सितम्बर	
1034/ 140, जापवा कालामा (श्राम वाल) गई करवा	नंबर—03, उत्तर— रास्ता 50 फीट, दक्षिण— एच	2023 से ब्याज और भूगतान की तिथि	
कॉलोनी बासनी जोधपुर ३४२००१ राजस्थान ऋण	नंबर—22	तक अन्य शुल्क और लागत।	
खाता संख्या LA34CLLONS000005027989		3	
किसी भी गठन के किए काउस भी सरोहर सि	ट (0920005690) और मांत्री लाल (0905)	5406667) से संगर्क को ।	

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सुरेन्द्र सिंह (08209095689) और मार्गा लाल (08955406667) स सपक कर। स्थानः राजस्थान दिनांकः 28.09.2024 (प्राधिकृत अधिकारी) कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8—(1)
जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के
🖥 रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा
🛮 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों
के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक माँग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता
को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के
अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन
न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न अंकिताानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता
🖥 का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी
भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल–एचएफएल" को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा
प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) /सह— उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराषि (रु.)	माँग सूचना	अधिग्रहण
श्री मनोज चावला, श्री मनोज चावला, श्रीमती अनीता चावला (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10013181, आईएल10077930)	बिल्ट—अप फर्स्ट फ्लोर आउट ऑफ स्टिल्ट + अपर ग्राउंड फ्लोर + 3 फ्लोर, फ्रंट लेफ्ट साइड बिना छत के अधिकार के प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर आर—116 पर, खसरा नंबर 60 / 15 में से, विलेज हस्तसाल, दिल्ली राज्य की रेवेन्यू एस्टेट में स्थित है, और कॉलोनी जिसे मोहन गार्डन के नाम से जाना जाता है, मॉक आर, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 में क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में): प्रॉपर्टी टाइपः कार्पेट एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया प्रॉपर्टी एरियाः 400.00, 450.00	प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10013181 रु. 1045559.00/— (रुपये दस लाख पैतालीस हजार पांच सौ उनसट मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10077930 रु. 204809. 00/— (रुपये दो लाख चार हजार आठ सौ नौ मात्र)	की तिथि 09—जुलाई —2024	की तिश्
श्री अजय कुमार सभरवाल श्रीमती पूजा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10214190)	बिल्ट अप अपर ग्राउंड फ्लोर का वह पूरा टुकड़ा, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नंबर 54 के हिस्से पर बना हुआ, खसरा नंबर 59/21 में से, गांव हस्तसाल में स्थित, कॉलोनी मोहन गार्डन के नाम से जानी जाती है, ब्लॉक के—2, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059 में क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि—क्षेत्र, सुपर बिल्ट—अप—एरिया, कारपेट—एरिया संपत्ति क्षेत्र: 540.00, 486.00, 441.00	रु. 2431565.00 /— (रुपये चौबीस लाख इकतीस हजार पांच सौ पैंसठ मात्र)	10—ਯੁलाई —2024	24—सितंब —2024
सुश्री संजना श्रीमती संतोष (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10342687 और आईएल10348640)	दूसरी मंजिल का वह पूरा हिस्सा, सामने की तरफ बिना छत / टेरेस अधिकारों के बिल्ट अप प्रॉपरली नंबर 14 में, बिक्री योग्य क्षेत्र विज्ञापन 450 वर्ग फीट, खसरा नंबर 19 / 1 में से, राजस्व संपदा गांव हस्तसाल में स्थित, कॉलोनी ज्ञात मीकस नगर, ब्लॉक—ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 निर्मित संपत्ति संख्या 14 में छत / टेरेस अधिकारों के बिना दूसरी मंजिल के हिस्से का पूरा टुकड़ा, बिक्री योग्य क्षेत्र विज्ञापन 450 वर्ग फीट मापने वाला, खसरा नंबर 19 / 1 में से, राजस्व संपदा गांव हस्तसाल में स्थित, कॉलोनी ज्ञात विकास नगर, ब्लॉक—ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 में स्थित।	प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10342687 रु. 24,31,448.00 / — (रुपये चौबीस लाख इकतीस हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) तथा प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10348640 रु. 18,39,137.00 / — (रुपये अड्डारह लाख उनतालिस हजार एक सौ सैंतिस मात्र)	18—जुलाई —2024	25—सितंब —2024
अन्य विवरणों के लिये कृ	पया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय : ए-1सी और ए-1डी, द्वितीय तल, नोए	डा सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर – 20	1301, 30/3	0ई, ऊपरी

भूतल, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015 से / अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुड़गाँव, हरियाणा से संपर्क करें। हस्ता. /- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिभिटेड औडुंबर, भूखंड सं. 101/1, इरेंडवाने, डा. केतकर रोड, पूर्ण 411004, महाराष्ट्र, भारत

विषय : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत सांविधिक माँग सूचना। जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम

3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत माँग सूचना दिनांकित िनम्नानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ ''दायित्वधारकों' के रूप में संदर्भित) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), यहाँ नीचे सूचीबद्ध, को संबंधित माँग सूचना में अंकित राशि का, संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण) / विधिक उत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, संबंधित प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे ईएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहाँ इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित राशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, स्तंभ (घ) में निम्नांकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक आकलित निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को ईएफएल के पास क्रमशः बंधक रखा गया है :

दायित्वधारी(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम / ऋण खाता सं.	निम्न तिथि के अनुसार कुल बकाया देयराशि (रु.)*	माग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि
(ऋण खाता संख्या : APPL00140482(LOAN000005044688) 1. त्यागी ट्रेडर्स, चमरावल, खास, गांव / कस्बा, चमरावल, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250515 2. कुलदीप, चमरावल, ढिकौली, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250515 3. रिंकी, चमरावल, ढिकौली, बागपत, मेरठख उत्तर प्रदेश—250515	रु. 31,68,984 / — (रुपये इकतीस लाख अड़सठ हजार नौ सौ चौरासी मात्र) 13—सितम्बर—2024 के अनुसार	26 / 09 / 2024 05 / 05 / 2024
4. कशिश त्यागी ग्राम चमरावल, चमरावल, ढिकौली, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250515		

दुकान / संपत्ति की अनुसूची 1 : संपत्ति स्वामित्वधारक मकान के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र मापन 580 वर्ग फुट अर्थात् 484.95 वर्ग गज है, जो आबादी क्षेत्र गांव चमरावल, परगना एवं तहसील एवं जनपरद : बागपत, उत्तर प्रदेश (यहाँ इसमें इसके उपरांत ''प्रश्नाधीन संपत्ति'' के रूप में संदर्भित) में स्थित है तथा उपर्युक्त संपत्ति की सीमा निम्नानुसार है :- पूर्व- 10 फुट चौड़ी, पश्चिम- प्रदीप प्रधान जी का घर, उत्तर- ओंकार तथा अन्य

*ऊपर अंकित संबंधित माँग सूचना उपरांकित दिनाँक में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार ईएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो ईएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अधीन कार्रवाई करेगी। उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे ईएफएल की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनाँक : 28-09-2024 हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी स्थान : बागपत, उत्तर प्रदेश कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

[कम्पनी (निगमन) नियमावली. 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दुसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली. 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) मामले में

तथा मामले में फर्स्टप्रॉजेक्ट लाइफ इंडिया फाउण्डेशन CIN: U64990DL2021NPL381913 जिसका पंजीकृत कार्यालयः एच. नं. ८, शहीद भगत

सिंह कॉलोनी, करावल नगर, समापुर, दिल्ली

भारत-110094 में है,

रतदहारा आम जनता को सचित किया जाता है कि "**रा.रा क्षेत्र** दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

13 के अंतर्गत यह आवेटक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेटन

करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पते: बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजीकृत कार्यालय: एच. नं. ८, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, करावल नगर, समापुर, दिल्ली भारत-110094 कत्ते एवं के लिये फर्स्टप्रॉजेक्ट लाइफ इंडिया फाउण्डेशन नितिन तिवारी

तिथि: 28.09.2024 स्थानः दिल्ली (निदेशक) DIN: 10248086

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के चप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में के लिए विज्ञापन हाइडाइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

का पंजीकत कार्यालय 1510 और 1511. चिरंजीव टॉवर, नेहरू प्लेस, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली- 110019 में स्थित है, के मामले

(तदद्वारा आम जनता को सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यह कंपनी, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के सहत एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी अपने पंजिकत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में बदलने में सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को आयोजित इंजीएम की बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन ने परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की जाती है।

कोई भी व्यक्ति विसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के हस्तावित परिवर्तन से प्रभावित डोने की संभावना है, तो वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण चलिलखित हो, एक हलफनामें के साथ अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पत बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर इस सुवना के प्रकाशन की तारीख से **चौदह दिनों** के मीतर पंजीकृत डाक हारा भेजें और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके रंजीकत कार्यालय में नीचे वल्लिखित पते पर भेजें। हाइडाइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालयः 1510 और 1511, चिरंजीव टॉवर, नेहरू प्लेस, दक्षिणी दिल्ली - 110019 आवेदक के लिए और उनकी ओर से

हाइडाइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अक्षय मित्तल

दिनांक : 28.09.2024 (अतिरिक्त निदेशक) स्थान । नई दिल्ली डीआईएनः 08572831

PUBLIC NOTICE M/S JARVIS INFRATECH PVT. LTD. (in Liquidation) CIN: U29253DL2015PTC279516

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code,

2016 and regulation thereunder, that the Not Readily Realisable Assets identified and covered hereunder ("NRRA") of M/S Jarvis Infratech Pvt. Ltd. (in Liquidation) stated in Table below, will be assigned by Open Tenders. Bids/Offers are invited from prospective investors towards this assignment or transfer under Regulation 37A read with Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016. The assets of M/s Jarvis Infratech Pvt. Ltd. will be assigned/transferred on an "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS"

SI. No.	100000000000000000000000000000000000000	ls of NRRA and Process	Reserve Price (Amount in Rs.)
	conditions for this offer is as pr	(Complete details and terms and resented in the Process Information 09.2024 which shall be available at signed/Liquidator)	9,30,000/-
	EMD/ Payment at the time of sub	mission of Bid	1,00,000/-
Las	1 Date to Apply: 12.10.2024	Inspection at Liquidator's office ti	IE.

12.10.2024 with prior appointment Submission of Bids: by 12.10.2024 | Date of opening of Bid: 14.10.2024, at 2:30 PM

The Liquidator may in his absolute discretion, modify, cancel, update, amend or supplement any of the information, proposal or terms and conditions contained in the "PIM". Further, any such amendments in this process shall be available at the address of the undersigned/Liquidator and no paper publication will be made for that. For any clarification you may contact the Liquidator at the email address: irp.jarvis@gmail.com or phone no. +91-9810190768

Dinesh Kumar Gupta

Liquidator of M/s Jarvis Infratech Pvt. Ltd. (in Liquidation) IBBI/IPA-001/IP-P00959/2017-2018/11580 Address: B-62, Yarrows Apartment, C-58/5, Sector - 62, Noida - 201301 (U.P.)

प्रपत्र फॉर्म - ए - <u>सार्वजनिक घोषणा</u> [भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियम 14 के अंतर्गत,

Place: Noida

माँग

सूचना

Date: 25.09.2024

स्थान : नोएडा

(रवैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017]

हरेऑन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ प्रासंगिक विवरण

1	कॉपीरेट व्यक्ति का नाम	हरेऑन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	15 जनवरी 2015
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U74140DL2015PTC275518
5.	कॉर्पोरंट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	मलैट नंबर 1005ए, 10वीं मंजिल, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग प्लॉट नंबर 21, बाराखंभा रोड, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत -110001
6.	कॉरपोरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	24 सितंबर 2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	सुश्री मनीषा रावत ए-1 / बी, तीसरी मजिल, टी-02, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 ई-मेल: manisharawatfcs@gmail.com फोन : 0120-4227699 पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00233/2017-18/10684
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24 अवटवर 2024

लद्रारा द्वारा सूचना दी जाती है कि हरेऑन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 24 सितंबर, 2024 को स्वेच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हरेऑन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हितवारकों को अपने दावों का प्रमाण 24 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले आइटम 7 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारक दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं । दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मनीषा रावत

(परिसमापक) आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00233/2017-18/10684 असाइनमेंटनेट (एएफए) के लिए प्राधिकरण -विनांक : 27 सितंबर 2024 **収収2/10684/02/180125/203224** थी संदीप कुमार सिंह 04.06.2024 F. 9,51,994.14/

लिए उपलब्ध समय सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम ऋज खाता सं. गिरवीकृत सम्बीत का विवरण जमानती का नाम की तिथि लाट न. 5/1613, का समस्त भाग एसएफ, संस्टर-5 (सोकेतिक 6660002082 तथा सुधी अनुसिह (रुपये नी लाख इक्यायन हजार नी सी चसुन्धरा, गानियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 शा का चीरानचे एवं चीदह पैसे मात्र) तिथि 04-06-2024 तक

(ब) pnb Housing रेवेवन कार्यस्य : श्री मेंग्रम, अन्विक स्थर, 22, के.वे. सर्ग, रई दिल्से-110001 दूसमा : 011 -23357171, 23357172, 23705414 वेबसङ्ट : www.pnbbousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस

लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रचर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तिवाँ के उपयोग में

सुचना/ओं की तिथि/कथित सुचना/ओं की प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार/यें से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राणियों का पुनर्भगतान करने के लिए

कर्जदार रों के पुनर्शनान में असफल रहने के कारण एनहारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पंडित

विशेष रूप से कर्जदार रो तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्मन्ति/वों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्मन्ति/वों के साथ किसी प्रकार का

संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर व्यान के लिए पीएनवी हाइसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभत आस्त्रियों को छड़ाने के

कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कथ्ता कर लिया है।

शाखा पता : डी-2, भूतल, सेक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

स्थान : नोएडा, तिथि : 27.09.2024 अधिकृत प्राधिकारी, पीएनवी हाउसिंग न्हिपटेड

IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

हरियाणा-126101 ऋण व्याता संख्या LAHSCLLONS000005050719/AP-10117195)

Home Loans पंजी. कार्यालय :- प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122 002, **सावा कार्यास्य** : 173, नेहरू नगर, प्रथम तल जीएसएम, पीक, रूढ़ेगी -247 667, पनीट नंबर 67 में 60 दिवीय दल, यमरारा नगर (आईसीआईसीआई बैंक के कार), रेड स्ववायर मर्विट, हिसार, हरियाणा,

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

गर्बकि, अधोहरताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस एँव कॉर्पोरेशन लिमिटेव के प्राधिकत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्शनिर्माण और (प्रतिभृति) हित (प्रकर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ प्रक्रित धारा 13(12) के अधीन प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग हुएना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी / प्रतिभू से बकाया राशि कर भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के मीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्दारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सुबना दी जाती है कि अधोहरतावारी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति / यां का भीतिक / सांकेतिक कच्जा उक्त नियमवसी के नियम 8 एवं 9 के साथ परित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शनितयों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर सिया है। अब, कर्जवार को विशेष कप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्परित/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्परित/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया रात्रि तथा जस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभारत्वीन होगा।

मांग सूचना की तिथि प्रमारित / बंधक सम्पतित (सम्पतित के सभी अंश एवं खंड) करूना की तिथि कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम मांग सूचना की तिथि तक एवं ऋण खाता संख्या श्री/श्रीमती दीक्षा 25-09-2024 गृह कर रजिस्टर संख्या पुरानी 16/8 और नगी 53 धारक मांग सूचना दिनांकित 07–10–2019. (भौतिक कब्जा) पत्नी सुधीर कुमार, कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट या 116.17 वर्ग मीटर कि. 17,07,380.14./-- (रूपए सजह लाख 2. श्री / श्रीमती सुधीर कुमार अधिमापन की मूमि के एक मूखंड धारक संपत्ति के समस्त । सात हजार तीन सौ नब्बे तथा पैसे चौदह वह भाग तथा अंश. जो गलकपुर लतीफपुर अंदर हदूद मात्र) 31-10-2019 तक वकाया. उस पर दोनों का पता : 57, न्यू आदर्श नगर, हरिद्वार, (आदर्श नगर) में, नगर निगम रुड़की की सीमा के अंदर, 01-11-2019 से भुगतान की तिथि तक रूडकी-247667, उत्तरांचल परगना और तहसील रुद्धकी, जिला हरिद्वार में स्थित है। ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित ऋण व्याता संख्या सीथा इस प्रकार परिसीमित है : पूर्व- धर्मवीर सिंह धीमान CLA100003327) का घर, पश्चिम- रवीद्र कुमार का घर, उत्तर- सक्क 11 6 फुट चौड़ी, दक्षिण- अन्य का घर। सम्पत्ति के सभी अन्न एवं खंबं : खेवट नंबर 88, खाता | मांग सूचना दिनाकित 10-07-2024, श्री/श्रीमती जुनेजा एच 24-09-2024 नंबर 91, कुल तादादी 2 कनाल, 8 मरले, गैर माजरूओं 🕏 7,43,888.39/— (रूपए सात लाख श्री / श्रीमती साहिल दृहान का हिस्सा 4/13, बागदर 14 मरले 7 सरलई, वाका रकवा तेतालीस हजार आठ सी अठासी तथा पैसे 3. औ / श्रीमती पंकज करेला, तहसील जुलाना, जिला-जीद, हरियाणा-126101, जन्तालीस मात्र) 09-07-2024 तथ सभी का पता : मकान नंबर 633, वीपीओ चीहददी :- पुरव : रमेश एवं राम मेहर का मकान, पश्चिम | बकावा, उस पर 10-07-2024 से भूगता-करेला, तहसील जुलाना, जिला-जीद, ंगली 23 फीट, उत्तर : जसमीर का प्लॉट, दक्षिण : ओम की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों लया हरियाणा-126101 अन्य पता : खेवट नंबर 88, खाता नंबर 91, वाका स्कबा करेला, तहसील जुलागा, जिला-जींद,

स्थान : रूड़की, जींद, तिथि : 28-09-2024 वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 98184 60101)

कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड □Koqta

CIN No. U67120RJ1996PLC011406 कॉपॅनिट कार्यांनय : एस-1 गांपालवाडी, अजगेर पुलिया के पास, मेट्रो पिलर नंबर 143, जयपुर-302001, राजस्थान, भारत । दूरभाष: +91 141 6767067 पंजीकृत कार्यालय : कोगटा हाउँस, आजाद मोहल्ला, विजयनगर-305624,

राजस्थान, मारत। इमेल : info@kogta.in । www.kogta.in वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

धारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने कोगटा फाइनेंकियल (इंडिया) लिनिटेड से नीचे दिए गए प्रत्यागृत ऋणों का लाम उदाया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं औ ह—उधारकर्ताओं के ऋण को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रत्यामृत किया गया है। चुंकि वे संबंधित ऋण समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और प्रनियमित हो गए थे, इसलिए आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार जनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड को उनके द्वारा देय क्षि का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है और उक्त राशियों पर भविष्य का ब्याज भी लागू होने के रूप में देय होगा और उसी पर उनकी संबंधित तारीखाँ से शुक्क लिया जाएगा। उधारकर्ताओं और 13(2) अनुसार बकाया/सूचना दिनांक/ प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ का सह-उधारकर्ताओं /बंधककर्ता ऋण खाता सं./एनपीए दिनांक

1. श्री कवर लाल (आवेदक / बंधककर्ता) पुत्र श्री नरसिंह लाल संजय सी कॉलोनी, हाथी नाहर प्रताप नगर, जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 9636003352 <u>इसके अतिरिक्त</u> - मैसर्स राहुल बिल्डिंग मटेरियल जरिए प्रोपराइटर श्री कवर लाल घोलियान मरिजद के सामने, प्रताप नगर जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 9636003352 2. श्रीमती मीरा के (सह-आवेदक / बंधककर्ता) पत्नी श्री कवर लाल सजय सी कॉलोनी, हाथी नाहर प्रताप नगर, शमशान रोड, जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 9636003352 3. श्री जीवराज डी (जमानतदार) पुत्र श्री ढाला राम नाथो की बगेची के पीछे सिवांची गेट जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 8769196508 <u>इसके अतिरिक्त</u> - श्री जीवराज डी पुत्र श्री ढाला राम 1740 महेश सेन हाई स्कूल सूरसागर, तहसील जोधपुर जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 8769196508	रु. 20,07,817/- (रुपये बीस लाख सात हजार आठ सौ सन्नह मान्न) दिनांक 12.08.2024 तक/ सूचना दिनांक 12.08.2024/ 0000101534/03.08.2022	आवासिय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, आवंटन नं. 613 व दिनांक 11.02.2013 रिथत संजय 'सी' कॉलोनी, वार्ड नं. 18, प्रताप नगर, जोधपुर, जिला जोधपुर । माप - पूर्व 37 फीट, पश्चिम 37 फीट, उत्तर 20 फीट, दक्षिण 17 फीट कुल क्षेत्रफल 684.50 वर्ग फीट (70. 05 वर्ग मीटर) नगर निगम जोधपुर, राजस्थान द्वारा जारी किया गया व श्री कवर लाल पुत्र नर सिंह व श्रीमती मीरा देवी पत्नी कवर लाल आर इसे पंजीकृत किया गया 17/12/2018 बुक नं. 1, जिल्द नं. 218, पेज नं. 177 पर उप-पंजीयक के समक्ष (IV), जोधपुर, राजस्थान सम्पत्ति की चारों सीमाओ के भीतर पूर्व - नरसिंह, पश्चिम - जसोदा बाई, उत्तर - लन/रोड, दक्षिण - पहाडी
1. श्री पारस नाथ योगी (आवेदक / बंधककर्ता) पुत्र श्री जेठू नाथ योगी ग्राम बामनी, तहसील आसींद दांतरा, भीलवाड़ा, राजस्थान - 311301 मो 9950977308 इसके अतिरिक्त - श्री नाथ शू स्टोर जरिए प्रोपराइटर श्री पारस नाथ योगी गांधी चौक, सदर बाजार, आसींद भीलवाड़ा, राजस्थान - 311301 मो 9950977308 2. श्रीमती लाडू देवी (सह-आवेदक) पत्नी श्री पारस नाथ योगी ग्राम बामनी, तहसील आसींद दांतरा भीलवाड़ा, राजस्थान - 311301 मो 9024892558	रु. 20,00,142/- (रुपये बीस लाख एक सी बयालीस मात्र) दिनांक 10.08,2024 तक/ सूचना दिनांक 12.08.2024/ 0000152160/03.02.2023	आवासिय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग पट्टा नं. 1, प्रस्ताव नं. 125, मिसल नं. 269 दिनांक 18. 07,2018 को श्री पारस नाथ योगी पुत्र जेटू नाथ योगी के नाम पर जारी किया गया। प्लॉट की माप लंबाई व बाँडाई 64X(19+22)/2 कुल क्षेत्रफल 1312 वर्ग फीट है स्थित ग्राम वामनी, ग्राम पंचायत बोरेला, पंचायत समिति आसींद, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान पंजीकृत 31.07.2018, बुक नं. 1, जिल्द नं. 63, पंज नं. 35 उप पंजीयक आसिंद के समक्ष,

 श्री दिनेश नाथ योगी (जमानतदार) पुत्र श्री चुन्नी नाथ योगी एसएच. 07 सूर्यलोक अपार्टमेंट बी व सी सीएचएस लिमिटेड जे.पी नगर रोड़ भायंदर पश्चिम, थाने, महाराष्ट्र

योगी पुत्र श्री चुन्नी नाथ योगी ग्राम बामनी, तहसील आसींद दांतरा, भीलवाड़ा, राजस्थान - 311301 श्री महसूब खान (आवेदक) पुत्र श्री रहमान खान तेलियों का वास, केरू मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.-9478512557 <u>इसके अतिरिक्त</u> - केजीएन सेंड स्टोन एक्सपोर्ट्स जरिए प्रोपराइटर श्री महबूब खान तेलियों का बास,

401101 मो.- 9820622057 इसके अतिरिक्त - श्री दिनेश नाथ

केरू जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 9478512557 श्री रहमान खान (सह-आवेदक/ बंधककर्ता) पुत्र श्री जमालुदीन खान तेलियों की मरिजद के पास केरू, मंडोर, जोचपुर, राजस्थान - ३४२०२४ मो.- १६४५८२५५२५ श्रीमती कमला एम (सह-आवेदक) पत्नी श्री रहमान खान

केरू, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 9654854555 श्रीमती फातमा एम (सह-आवेदक) पत्नी श्री महबूब खान केरु, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 9685717521 इसके अतिरिक्त - श्रीमती फातमा एम पत्नी श्री महबूब खान 334, तेलियों का बास तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर राजस्थान-342024 मो.- 9685717521 श्री मकासुब खान (सह-आवेदक) पुत्र श्री रहमान खान

केरू, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.-9950460106 <u>इसके अतिरिक्त</u> - श्री मकसुब खान पुत्र श्री जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 9950460106

रहमान खान ३३३, सिधी मुसलमान का बास, केरू जिला श्री जावेद खान गौरी (सह-आवेदक) पुत्र श्री रहमान खान केरु, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान-342024 मो.-8947821225 श्री इरकान बी (जमानतदार) पुत्र श्री वाबू खान केरु.

भीलवाड़ा, राजस्थान सम्पत्ति की चारों सीमाओं के भीतर - पूर्व - नहर उसके बाद रास्ता, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - प्रभृनाथ / जेठूनाथ, दक्षिण - मेवानाथ / बगटूनाथ

₹. 20,05,422/-अचल सम्पत्ति/आवास भूखंड के सभी अभिन्न अंग जिस पर पट्टा नं. 129, मिसल नं. (रुपये बीस लाख पांच हजार चार 94/08-09 दिनांक 20.08.2009 स्थित ग्राम सी वाईस मात्र) दिनाक 08.08.2024 तक/

केरू, ग्राम पंचायत केरू, पंचायत समिति मंडोर, तहसील व जिला जोधपुर पट्टा 20.08. 2009 को जारी किया गया व ग्राम पंचायत केरू के जरिए नवीनिकरण 22.06.2015 को किया गया, पंचायत बेठक प्रस्ताव नं. 5 दिनांक 29. 06.2015 को पंजिकृत किया गया, बुक नं. 1 जिल्द नं. 1389, पृष्ठं नं. 34 पर उप रंजिस्ट्रार (II) जोधपुर, राजस्थान श्री रहमान खान पुत्र जमालुद्दीन खान के स्वामित्व में किया गया क्षेत्रफॅल - 785.77 वर्ग गज बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाओं के भीतर - पूर्व - रास्ता, पश्चिम -सय्यद परवेज की सम्पत्ति, उत्तर - बाबू खान पुत्र जमाल खान की सम्पत्ति, दक्षिण - मूसे खान पुत्र दीन खान की सम्पत्ति

Chandigarh

मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 8442001578 बुंकि आपको उस प्रते पर भेजे गए नोटिस जिसमें आप मूल रूप से रहते हैं / व्यवसाय करते हैं / व्यक्तिगत : रूप से लाभ के लिए काम करते हैं , हमें वापस आ गए हैं, इसलिए हम इस नोटिस को . काशित करने के लिए विवश हैं। आपको उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के 60 दिनों के मीतर अपनी संबंधित तारीखों और अन्य लागतों, शुल्कों आदि से भनुबंधित ब्याज दर के साथ उपर्युक्त देयता का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर केएफएल उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी र्मिकार का प्रयोग करेगा। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभति आस्तियों के छन्डाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर दिलाया जाता ो आपको यह भी ध्यान में रखा जाता है कि उपरांक औधनियम की धारा 13(13) को शर्तों के अनुसार, आप उपरांक सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पहें या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेंगे।

सूचना दिनांक 12.08.2024/

0000085376/07.05.2023

दिनांक : 27.09.2024 प्राधिकृत अधिकारी कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड स्थान : राजस्थान

www.readwhere.com

एएफए 18 जनवरी, 2025 तक वैध है।



युनियन बैंक ऑफ इंडिया एसेट रिकवरी ब्रांच, विशाखापत्तनम द्वार संख्या २६-१५-१५०, आंध्र बैंक बिल्डिंग चंगायराओपेटा, विशाखापत्तनम-५३०००१, ए.पी.

फोनः 0891-2537792/82, मोबाइलः 9324517291. ई-मेलः ubin0817295@unionbankofindia.bank

बिक्री के विषय में उधारकर्ता को सूचित करने के लिए नोटिस (30 दिन का नोटिस) स्रक्षा हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के नियम ६(२)/८(६) के अनुसार।

(1). मेसर्स डेक्कन इस्पात लिमिटेड (उधारकर्ता), रजि. कार्यालय 21, सरकार बाय लेन, सोनी हाउस कोलकाता-700007. (2). **मेसर्स डेक्कन इस्पात लिमिटेड (उधारकर्ता).** स्थानीय कार्यालय तीसरी मंजिल सत्य सर्य कॉम्प्लेक्स, द्वारकानगर, विशाखापत्तनम (3) श्री अरिकिरेवुला नारायण मूर्ति (निदेशक), द्वार नंबर 4-46-1/2, मेन रोड, पेडा वाल्टेयर कॉलोनी, विशाखापत्तनम, (4) **श्री अशोक कुमार जोशी (निदेशक),** 73. डी ब्लॉक, बांगर एवेन्य कोलकाता. पश्चिम बंगाल. **(5). श्री संजय दास (निदेशक)** 139/2, प्रतिभा स्कूल, सब्बेवरम, विशाखापत्तनम, (6), स्वर्गीय श्री चिरंजीवी लाल अग्रवाल (गारंटर) के कानूनी उत्तराधिकारी, दरवाजा नंबर 4-69-27 लॉसन्स बे कॉलोनी, विशाखापत्तनम, (7) श्री कपिल सेठी (गारंटर), ए 393, संथा विहार, नई दिल्ली-110044 (8) मेसर्स टू वृइस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (गारंटर), डी.नं. 9-19-56/3, दूसरी मंजिल, सीबीएम कंपाउंड, वीआईपी रोड, विशाखापत्तनम। (9). मेसर्स.डेक्कन वेनीर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, असकापल्ली गांव, सब्बावरम मंडल, विशाखापत्तनम। प्रिय महोदय/महोदया,

विषयः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक **ऑफ इंडिया** को देय राशि की वसूली के लिए मेसर्स डेक्कन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की बिक्री।

युनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्रक्षित लेनदार है, ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 03.10.2017 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें आपसे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भगतान करने को कहा गया। चुंकि आप निर्धारित अवधि के भीतर उक्त नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 के साथ पठित अचल सरक्षित आस्तियों का कब्जा ले लिया है। कब्जा नोटिस दिनांक 16.07.2018 है।

सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के बाद भी आपने बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार, इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करके नीचे उल्लिखित संपत्ति को बेचना आवश्यक हो गया है। ई–नीलामी की तारीख और समय, संपत्ति के आरक्षित मूल्य और सेवा प्रदाता का विवरण, जिसके द्वारा ई–नीलामी आयोजित की जानी है, आपको अलग से सूचित किया जाएगा।

इसलिए, यदि आप बिक्री नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले बैंक को देय राशि का भुगतान ब्याज, लागत, शुल्क और बैंक द्वारा किए गए खर्चों के साथ करते हैं, तो संपत्ति की बिक्री के लिए कोई और कर्ज नहीं लिया जाएगा और आप अधिनियम की धारा 13 (बी) में निर्धारित अनुसार अपनी संपत्ति को छुड़ा सकते हैं।

संपत्ति की अनुसूचीः

तीसरी मंजिल पर शहरी वाणिज्यिक फ्लैट, लेवल–5, "**सत्य सूर्या कॉम्प्लेक्स",** टीएस नंबर 653 से 163 प्लॉट नंबर जेबा 264 ए विशाखापत्तनम, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, चांद स्वीट्स अपर अल्लीपुरम वार्ड द्वारकानगर, जीवीएमसी आरटीसी कॉम्प्लेक्स के पास, विशाखापत्तनम 533016 (सेल डीड दस्तावेज संख्या 2271/2000, 2272/2000 और 2273/2000 दिनांक 26.12.2000 में निर्दिष्ट संपत्ति विवरण) बाउंडनेस उत्तर गायती प्रतिस्पर्धी अकादमी, दक्षिण सिक्स लास्ट कोंडोर और गायेन प्रतिस्पर्धी अकादमी के लिए खुला, पश्चिम आकाश के लिए खुला निर्देशांकः 17,725054, 83.306373

दिनांकः 18.09.2024 स्थानः विशाखापत्तनम

हस्ता/-अधिकृत अधिकारी युनियन बैंक ऑफ इंडिया। संपत्ति वसूली शाखा

खुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा) : एक्सिस हाउस, टावर-2, AXIS BANK दूसरी मंजिल, 1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, यू.पी. एक्सिस बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, गिगाप्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई - 400708 ,पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर लॉ गार्डन के सामने, एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण संख्या xxxxxxx2438 में सुरक्षित लेनदार श्री केवल कृष्णन और श्रीमती नील रैना द्वारा देय भविष्य के ब्याज और लागतों सहित 03.08.2024 तक बकाया **रु. 34,51,956 / – (रुपये चौंतीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ छप्पन मात्र)** की वसुली के लिए 16 अक्टूबर 2024 को **"जैसा है जहां है", " जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:

ज्ञात भार (यदि कोई हो):

Augu us fait and cile	. 161
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	ए. 23,74,241 / — (रुपये तेईस लाख चौहत्तर हजार दो सौ इकतालिस मात्र)
धरोहर जमा राशि (रुपये में)ः	रु. 2,37,424.10/— (रुपये दो लाख चौरासी मात्र)' एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में एवं दिल्ली में देय डीडी/पीओ के माध्यम से ।
बोली वृद्धि राशिः	रु. 10,000/− (केवल दस हजार रुपये)
ईएमडी के साथ बोलियां / निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः	14 अक्टूबर 2024 को अधिकतम सायं 05:00 बजे तक, एक्सिस हाउस, टावर—2, दूसरी मंजिल, 1—14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा—201301, यू.पी. , श्री मुकेश सिंह को संबोधित।
सार्वजनिक ई–नीलामी हेतु दिनांक, समय और स्थान :	16 अक्टूबर 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। इसके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा आदि सहित ई—नीलामी निविदा दस्तावेज उपरोक्त विवरण के अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर

उपलब्ध हैं। अनुसूची-संपत्ति का विवरण

डुंडाहेडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में **''पंचसील स्क्वायर''** के नाम व शैली के अंतर्गत क्रॉसिंग रिपब्लिक नामक . टाउनिशप में सी–3 पर निर्मित वाणिज्यिक स्थल में ,वाणिज्यिक दुकान संख्या 129 का प्रथम तल, जिसका सपर एरिया 320 वर्ग फीट (लगभग 29.72 वर्ग मीटर) तथा कवर्ड एरिया 194 वर्ग फीट (लगभग 18.02 वर्ग मीटर) है, **पूर्वः** रोड–30 मीटर, **पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **उत्तरः** अन्य संपत्ति, **दक्षिणः** रोड–45 मीटर।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

किसी अन्य सहायता के लिए इच्छुक बोलीदाता श्री मुकेश सिंह, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल संख्या ,91.9873015430 से कार्यालय समय के दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दिनांक -28.09.2024, स्थान -नोएडा हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Harvana

Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: investor.relations@jaispring.com, Website: www.jaispring.com STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (Rs. in Lakhs)

S. Particulars		Quarter ended	i	Year ended
lo. Particulars	Unaudited 30.06.2024	Audited 31.03.2024	Unaudited 30.06.2023	Audited 31.03.2024
Total Income from operations	55,713.65	64,014.54	57,526.25	2,42,677.27
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	6,459.16	7,796.73	6,275.92	28,326.27
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	6,459.16	7,796.73	6,275.92	28,326.27
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	4,638.46	5,477.47	4,559.26	20,541.45
Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss)	for the period	500,000,000,000		0.0000000000000000000000000000000000000
(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,626.90	5,544.16	4,563.86	20,478.34
Equity Share Capital	3,988.02	3,988.02	3,986.93	3,988.02
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	200000000000000000000000000000000000000		10000000	86,330.35
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.)				200000000000000000000000000000000000000
Basic:	1.16	1.38	1.14	5.15
Diluted:	1.16	1.37	1.14	5.14

- The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as the Group) for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings
- held on September 27, 2024. 2. Information of standalone un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2024 in terms of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure

R	equirements) Regulations, 2015 is as under:		(Rs. in Lakhs)
S.	Bestevies	Quarter ended	Year ended
No.	Particulars	Unaudited Audited Unaudited 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023	Audited 31.03.2024
1 2 3	Revenue from operations Profit before tax Total Comprehensive income for the period	54,232.10 62,008.77 55,936.22 6,745.76 8,698.14 6,201.83 4,990.51 6,499.63 4,614.93	2,36,095.48 32,427.92 24,932.53

3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com.

Date : September 27, 2024 Place: New Delhi

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन करने का प्रस्ता

करती है. जिसमें कंपनी अपने पंजिकत कार्यालय को **राष्ट्रीय**

राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली से उत्तर प्रदेश

राज्य में बदलने में सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार 06 सितंबर, 2024 को आयोजित ईजीएम की बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय के

रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो व

वा तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर

निवेशक शिकायत प्रसूप फाइल कर शिकायत दर्ज कर सकत

है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके

विरोध का कारण उल्लिखित हो एक इलफनामें के साव

अपनी आपत्तिमाँ को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पर

बी-2 विंग, दसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ

कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर इस सुवना व

प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर पंजीकृत डाक

द्वारा भेजें और इसकी एक प्रति आयेदक कंपनी को उसके

र्गजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर मेजें।

पंजीकृत कार्यातयः 1510 और 1511, चिरंजीव

टॉवर, नेहरू प्लेस, दक्षिणी दिल्ली - 110019

आवेदक के लिए और उनकी ओर से

अक्षय मित्तल

(अतिरिक्त निदेशक)

डीआईएनः 08572831

हाइडाइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

हाइग्राइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड,

दिनांक : 28.09.2024

स्थान : नई दिल्ली

में परिवर्तन की पृष्टि करने की मांग की जाती है।

For Jamna Auto Industries Ltd P. S. Jauhar Managing Director & CEO DIN 00744518

कब्जा की तिथि

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड **EQUICO5** (पूर्व का इक्किटास फाइनेंस लिमिटेड)

रिजस्टर्ड कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तिमलनाडु-600 002 कब्जा सूचना (धारा 8(1) के तहत-अचल सम्पत्ति हेतू)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम. 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शिक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए एक अधिनियम की धारा 13(2) केतहत मांग सचना जारी की थी। सम्बन्धित कर्जदार निर्धारित समय के भीतर नीचे वर्णित राशि का भूगतान करने में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा गारंटर को एवं जनसामान्य को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सीजेएम अलवर द्वारा जारी इसके मकदमा प्रतिभतिकरण 58/24 आदेश दिनांक 01.02.2024 के माध्यम से सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा अनुसुचित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि लिए मैसर्स इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक के अध्यधीन होगा।

क्र. कर्जदार(रों)/जमानती(यों) सं. के नाम (शाखा का नाम)	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा करने की तिथि
1 1. श्री राकेश कुमार मीना 2. श्री राजेश कुमार 3. श्री रामावतार 4. श्रीमती संतरा देवी एल.नं.: SEBEROR0302987 शाखा: बहरोड़	गैर-कृषि संपत्ति आवासीय संपत्ति पट्टा संख्या - 026, बुक नंबर -043, संकल्प संख्या - 01, गांव चिकानी, ग्राम पंचायत हटुंडी, पंचायत समिति - मुंडावर, जिला - अलवर (राजस्थान) का समस्त भाग, (क्षेत्रफल 130 वर्ग गज / 1178 वर्ग फीट) पर स्थित है, जिसमें सभी वर्तमान और भावी अधिरचनाएँ शामिल हैं। सीमाएं : पूर्व - सामुदायिक भवन, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - पट राम का घर, दक्षिण - आम रास्ता, मुंडावर के उप पंजीकरण जिले और अलवर (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	27-04-2023 तथा 234993	27-09-2024
तिथि : 28.09.2024 स्थान	: अलवर अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास स्मा	ल फाइनेंस है	कि लिमिटेड

IndiaShelter

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट-15,6वीं मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालयः नं.ए/९४/९५, प्रथम तल, शिव गौरी प्लाना आखलिया विकास योनना नोधपुर -३४२००१

अचल संपत्ति के लिए कब्जा-सूचना

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत **इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिभिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए उधारकर्ताओं एवं सम्पत्ति के मालिकों / जमानती को भी उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के उल्लिखित राशि का भूगतान करने के लिए यहाँ निर्दिष्ट खातों के सम्मुख अंकित तिथियों को एक मांग नोटिस जारी किया। सम्पत्ति के मालिकों एवं अन्य द्वारा राशि का भगतान करने में विफल रहने पर, यहाँ निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को तद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निर्दिष्ट प्रत्येक खातों के सम्मुख अंकित तिथियों को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति / यों पर सांकेतिक कब्ज़ा कर लिया है। अब ,विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **इंडिया ग्रेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेग्रन लिअिटेड** को यहाँ निर्दिष्ट राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगी।

ऋणधारक /गारंटर का नाम	चार्जंड / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना	वास्तविक
(सम्पत्ति के मालिकों) एवं ऋण	(बिम्न से युक्त सम्पत्ति के सभी	की तिथि के अनुसार	आधिपत्य की
खाता संख्या	टुकड़े एवं अंरा)	बकाया राशि	तिथि
अखे कंवर और लाधू सिंह, निवास स्थानः प्लॉट नंबर 2 जगदंबा किराना स्टोर, जगदंबा श्रमिक बस्ती के पास, बासनी द्वितीय चरण, जोधपुर, 342001 राजस्थान, इसके अलावा मकान नंबर 02, खसरा नंबर	नई दरबी कॉलोनी बासनी जोधपुर स्थित संपत्ति का संपर्ण टकडा और अंश। कल भिम क्षेत्रफल 138.88	रु.755616/ — (सात लाख पचपन हजार छह सौ सोलह रुपये मात्र) 14 सितम्बर	22.09.2024
1034/740, जगदंबा कॉलोनी (ग्राम पाल) नई दरबी कॉलोनी बासनी जोधपुर 342001 राजस्थान ऋण खाता संख्या LA34CLLONS000005027989	नंबर—03, उत्तर— रास्ता 50 फीट, दक्षिण— एच नंबर—22		

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सुरेन्द्र सिंह (08209095689) और मांगी लाल (08955406667) से संपर्क करें। (प्राधिकृत अधिकारी) कृते इंडिया शिल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थानः राजस्थान दिनांकः 28.09.2024

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1) जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी व रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक माँग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न अंकिताानुसार एक राशि तथा इस राशि पर व्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। 'उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ ''आईआईएफएल–एचएफएल'' को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) /सह— उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराषि (रु.)	माँग सूचना	अधिग्रहण
श्री मनोज चावला, श्रीमती अनीता चावला (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10013181, आईएल10077930)	बिल्ट—अप फर्स्ट फ्लोर आउट ऑफ स्टिल्ट + अपर ग्राउंड फ्लोर + 3 फ्लोर, फ्रंट लेफ्ट साइड बिना छत के अधिकार के प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर आर—116 पर, खसरा नंबर 60 / 15 में से, विलेज हस्तसाल, दिल्ली राज्य की रेवेन्यू एस्टेट में स्थित है, और कॉलोनी जिसे मोहन गार्डन के नाम से जाना जाता है, मॉक आर, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 में क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में): प्रॉपर्टी टाइपः कार्पेट एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया प्रॉपर्टी एरिया: 400.00, 450.00	प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10013181 रु. 1045559.00/— (रुपये दस लाख पैतालीस हजार पांच सौ उनसट मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10077930 रु. 204809. 00/— (रुपये दो लाख चार हजार आठ सौ नौ मात्र)	की तिथि 09—जुलाई —2024	की तिथि
श्री अजय कुमार सभरवाल श्रीमती पूजा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10214190)	बिल्ट अप अपर ग्राउंड फ्लोर का वह पूरा टुकड़ा, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नंबर 54 के हिस्से पर बना हुआ, खसरा नंबर 59/21 में से, गांव हस्तसाल में स्थित, कॉलोनी मोहन गार्डन के नाम से जानी जाती है, ब्लॉक के—2, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059 में क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि—क्षेत्र, सुपर बिल्ट—अप—एरिया, कारपेट—एरिया संपत्ति क्षेत्र: 540.00, 486.00, 441.00	रु. 2431565.00 /— (रुपये चौबीस लाख इकतीस हजार पांच सौ पैंसठ मात्र)	10—जुलाई —2024	24—सितंबर —2024
सुश्री संजना श्रीमती संतोष (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10342687 और आईएल10348640)	दूसरी मंजिल का वह पूरा हिस्सा, सामने की तरफ बिना छत/टेरेस अधिकारों के बिल्ट अप प्रॉपरली नंबर 14 में, बिक्री योग्य क्षेत्र विज्ञापन 450 वर्ग फीट, खसरा नंबर 19/1 में से, राजस्व संपदा गांव हस्तसाल में स्थित, कॉलोनी ज्ञात मीकस नगर, ब्लॉक—ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 निर्मित संपत्ति संख्या 14 में छत/टेरेस अधिकारों के बिना दूसरी मंजिल के हिस्से का पूरा टुकड़ा, बिक्री योग्य क्षेत्र विज्ञापन 450 वर्ग फीट मापने वाला, खसरा नंबर 19/1 में से, राजस्व संपदा गांव हस्तसाल में स्थित, कॉलोनी ज्ञात विकास नगर, ब्लॉक—ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 में स्थित।	प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10342687 रु. 24,31,448.00 / — (रुपये चौबीस लाख इकतीस हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) तथा प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10348640 रु. 18,39,137.00 / — (रुपये अट्ठारह लाख उनतालिस हजार एक सौ सैंतिस मात्र)	18—जुलाई —2024	25—सितंबर —2024

मन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय : ए–1सी और ए–1डी, द्वितीय तल, नोएडा सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बृद्ध नगर – 201301, 30/30ई, ऊपरी मुतल, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015 से / अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुडगाँव, हरियाणा से संपर्क करें। स्थान : दिल्ली, दिनाँक : 28-09-2024 हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

का घर, दक्षिण- बिजेंदर का घर।

औइंबर, भुखंड सं. 101/1, इरेंडवाने, डा. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

विषय : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत सांविधिक माँग सूचना।

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम के साथ पिठत धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत माँग सूचना दिनांकित निम्नानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं) / सह—ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ ''दायित्वधारकों'' के रूप में संदर्भित) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), यहाँ नीचे सूचीबद्ध, को संबंधित माँग सूचना में अंकित राशि का, संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण) / विधिक उत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, संबंधित प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे ईएफएल को, संबंधित सुचना /ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहाँ इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित राशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, स्तंभ (घ) में निम्नांकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक आकलित निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को ईएफएल के पास क्रमशः बंधक रखा गया है :

दायित्वधारी(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम / ऋण खाता सं.	निम्न तिथि के अनुसार कुल बकाया देयराशि (रु.)*	माँग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि
(ऋण खाता संख्या : APPL00140482(LOAN000005044688) 1. त्यागी ट्रेडर्स, चमरावल, खास, गांव / कस्बा, चमरावल, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250515	रु. 31,68,984 / — (रुपये इकतीस लाख अड़सट हजार नौ सौ चौरासी मात्र)	26/09/2024
 कुलदीप, चमरावल, ढिकौली, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250515 िरंकी, चमरावल, ढिकौली, बागपत, मेरठख उत्तर प्रदेश—250515 किशश त्यागी ग्राम चमरावल, चमरावल, ढिकौली, बागपत, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250515 	13—सितम्बर—2024 के अनुसार	05 / 05 / 2024

दुकान / संपत्ति की अनुसूची 1 : संपत्ति स्वामित्वधारक मकान के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र मापन 580 वर्ग फुट अर्थात् 484.95 वर्ग गज है, जो आबादी क्षेत्र गांव चमरावल, परगना एवं तहसील एवं जनपरद : बागपत, उत्तर प्रदेश (यहाँ इसमें इसके उपरांत ''प्रश्नाधीन संपत्ति'' के रूप में संदर्भित) में स्थित है तथा उपर्युक्त संपत्ति की सीमा निम्नानुसार है :– पूर्व– 10 फुट चौड़ी, पश्चिम– प्रदीप प्रधान जी का घर, उत्तर– ओंकार तथा अन्य

*ऊपर अंकित संबंधित माँग सूचना उपरांकित दिनाँक में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार ईएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो ईएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अधीन कार्रवाई करेगी। उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे ईएफएल की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनाँक: 28-09-2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : बागपत, उत्तर प्रदेश कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) मामले में

रतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा क्षेत्र** दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति 110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृत्ते एवं के लिये: फर्स्टप्रॉजेक्ट लाइफ इंडिया फाउण्डेशन तिथि: 28.09.2024 नितिन तिद्यारी

PUBLIC NOTICE M/S JARVIS INFRATECH PVT. LTD. (in Liquidation)

2016 and regulation thereunder, that the Not Readily Realisable Assets identified and covered hereunder ("NRRA") of M/S Jarvis Infratech Pvt. Ltd. (in Liquidation) stated in Table below, will be assigned by Open Tenders. Bids/Offers are invited from prospective investors towards this assignment or transfer under Regulation 37A read with Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016. The assets of M/s Jarvis Infratech Pvt. Ltd. will be assigned/transferred on an "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS

SI. No.	Brief Details of NRRA and the Process	Reserve Price (Amount in Rs.)
	Total value of NRRA Assets (Complete details and terms and conditions for this offer is as presented in the Process Information Memorandum (PIM) dated 20.09.2024 which shall be available at the official address of the undersigned/Liquidator)	9,30,000/-
	EMD/ Payment at the time of submission of Bid	1,00,000/-

EMD/ Payment at the time of sub	mission of Bid 1,00,000
Last Date to Apply: 12.10.2024	Inspection at Liquidator's office till: 12.10.2024 with prior appointment
Submission of Bids: by 12.10.2024	Date of opening of Bid: 14.10.2024, at 2:30 PM

supplement any of the information, proposal or terms and conditions contained in the "PIM". Further, any such amendments in this process shall be available at the address of the undersigned/Liquidator and no paper publication will be made for that. For any clarification you may contact the Liquidator at the email address:

Dinesh Kumar Gupta

IBBI/IPA-001/IP-P00959/2017-2018/11580 Address: B-62, Yarrows Apartment, C-58/5, Sector - 62, Noida - 201301 (U.P.)

(स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2017

हरेऑन सोलर इंड्या प्राइवेट लिमिटेड

-	DEATH-COLUMN IN	र्गे के ध्यानार्थ _{क विवरण}
1	कॉर्पीरेट व्यक्ति का नाम	हरेऑन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निरामन की तिश्रि	15 जनवरी 2015
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉपॉरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U74140DL2015PTC275518
5	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पलैट नंबर 1005ए, 10वीं मंजिल, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग प्लॉट नंबर 21, बाराखंभा रोड, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत -110001
6.	कॉरपोरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाला प्रारंग होने की तिथि	24 सितंबर 2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नबर और पंजीकरण संख्या	सुश्री मनीषा रावत ए-1/बी, तीसरी मंजिल, टी-02, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 ई-मेल: manisharawatfcs@gmail.com फोन : 0120-4227699 पंजीकरण संख्या: IBBUIPA-002/IP-N00233/2017-18/10684
8	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24 अक्टूबर 2024

को या उससे पहले आइटम 7 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमायक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। वितीय ऋणदाता अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तृत करना होगा। अन्य सभी हितधारव दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

दावों के झुठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

स्थान : नोएडा

आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00233/2017-18/10684 असाइनमेंटनेट (एएफए) के लिए प्राधिकरण V V 2/10684/02/180125/203224 दिनांक : 27 सितंबर 2024

(परिसमापक) एएफए 18 जनवरी, 2025 तक वैध है।

पंजीवृत कार्यानव : श्री मीजन, अन्तरिक भक्त, 22. के.बी. मर्न, रई दिल्ली-110001 दुरमण : 011 -23357171, 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbbonsing.com (a) pnb Housing शाखा पता : डी-2, भृतल, सेक्टर-3, नीएडा, उत्तर प्रदेश-201301 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रचर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस

लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पटित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सुचना ओं की तिथि कथित सुचना ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार में से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राशियों का पुनर्भगतान करने के लिए कहते हए एक माँग सचना निगंत की थी। कर्जदार में के पुनर्पमतान में असफल रहने के कारण एतदारा कर्जदामें को तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधीहरताक्ष्मी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पिठत कवित ऑपनियन की धार 13(4) के तरत उसे प्रदत्त प्रक्रियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मख ऑकत तिथियों पर नीचे वर्षित सम्पत्ति में पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार में तथा बनसामान्य को एतदारा सम्पत्ति वों से किसी प्रकार का संज्यबहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति वों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कवित राष्ट्रि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तिबी की छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। क्रम प्रश्न खाता सं, कार्यदार/सह-कार्यदार/ साँग सचन कम्मा करने गिरवीक्त संपन्ति का विवस्त

雅.	named and the second	जमानती का नाम	की तिथि		की तिथि	CONTRACTOR STATE OF THE STATE O
	0016 6660002082 शा.का. : नोएडा	ओ संदीप कुमार सिंह तथा मुश्री अंजू सिंह	04.06.2024	रु. 9,51,994.14/- (रुपये नी लाख इक्यायन हजार नी सी जीरानचे एवं चीदह पैसे मात्र) लिक 04-06-2024 तक	23.09.2024 (साकेतिक कन्डा)	ष्ट्रॉट नं. 5/1613, का समस्त भाग एसएफ, सेक्टर-5, वसून्धरा, मानियाबाद, इतर प्रदेश-201001
¥	न । नोएडा, ति	M : 27.09;2024			1	अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी झउसिंग लिबिटेड

IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड Home Loans पंजी. कार्यालय :- प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122 002.

राज्या कार्यालय : 173, नेहरू नगर, प्रथम तत, बी.एस.एम. बील, फड़की -247 इंडर, प्लीट नंबर इन से डा. हितीय तत, कमता नगर (आईसीआईसीआई बैंक के आपर) रेड स्कावर मार्किट, हिसार, हरियाणा.

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना जबकि अओहस्ताक्षरी ने इंडिया गेल्टर काइनैंस ऐंड कीपीरेशन लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आरितकों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभृति) हित

(प्रवर्तन) अधिनिक्षम, 2002 के अधीन और प्रतिमृति हिंत (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सपना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी. किसमें कजंदार और सम्पत्ति के स्वामी / प्रतिम से बकाया राशि का भगतान उक्त सपना की तिथि से का दिन के भीतर करने की मांग की राई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य जबत बकाया राक्ति चुकाने में असकल रहे हैं, एतदहारा क्योवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारम को सूचना दी जाती है कि अधोहरताबारी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पतित्र याँ का मौतिक / सांकेतिक कब्जा उक्त नियमवरी के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की पारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से लया सर्वसाधारण को हन सम्पत्ति / यों के संबंध में संख्यवहार नहीं करने हेतू सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति / यों के संबंध में कोई भी संख्यवहार इंडिया शेस्टर फाइनैंस कापरिश्वन तिमिटेंड की नीचे वर्णित बकाया राजि तथा उस पर व्याज, लागत इत्यादि के प्रभासधीन होगा। कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के समी अंत एवं खंड) मांग सूचना की तिथि,

एवं ऋण खाता संख्या	का वणन	नाम सूचना का तिथ तक बकावा राशि	
 श्री / श्रीमती दीक्षा पत्नी सुधीर कुमार श्री / श्रीमती सुधीर कुमार दोनों का पता : 57, न्यू आदशे नगर, हरिद्वार, रूडकी-247667, चतारांघल ऋण खाता संख्या C1.A100003327) 	गृह कर रिजरटर संख्या पुरानी 16/8 और नहीं 53 घारक कुल क्षेत्रकल 1250 वर्ग मृट या 116.17 वर्ग मीटर अधिमापन की मृमि के एक मृत्युक्त धारक संपत्ति के समस्त या माग तथा अंश, जो मतकपुर सतीफपुर अवर हबूद (आवर्श नगर) में नगर निगम सडकी की सीमा के अंदर, परगना और राहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमा इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व- समेवीर सिंह भीमान का घर, परिचम- रहींद्र कुमार का घर, उत्तर- सदक 11. 6 पूट भीड़ी, दक्षिण- अन्य का घर।	क 17,07,390.14 / - (संपए सजह लाख सात हजार तीन सी नब्बे तथा पैसे चौदह मात्र) 31-10-2019 तक बकाया, उस पर 01-11-2019 से चुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रमारों तथा लागत सहित	25-08-2024 (गीतिक कब्जा)
 भी/श्रीमती जुनेजा एव श्री/श्रीमती साहिल दुहान श्री/श्रीमती पंकज सभी का पता : मकान नंबर 633, वीपीओ करेला, तहसील जुलाना, जिला-जींद, हरियाणा-126101 	सम्मिति के सभी अंश एवं खंड : खंवट नंबर 88, खाश नंबर 91, कुल तादादी 2 कनाल, 8 मरले, गैर माजरूओ का हिस्सा 4/13, बागदर 14 मरले 7 सरसई, वाका रकबा करेला, तहसील जुलाना, जिला-जींद, हरियामा-126101, चीहददी - पूरव : स्मेश एवं राम मेहर का मकल, परिचम । गती 23 फीट, चलार : जसमीर का प्लॉट, दक्षिण : ओम सिंह का प्लॉट	सः 7,43,888.39 / - (रूपए सात लाख तेतालीस हजार आठ सी अठासी तथा पैसे उन्तालीस मात्र) 09-07-2024 तक करुया, उस पर 10-07-2024 से भगतान	24-09-2024 (सांकेंशिक कस्जा)
	का रकमा करेला, तहसील जुलाना, जिला-जींद SCLLONS000005050719/AP-10117195)		
	1.000		

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) स्थान : रूडकी, जींद, तिथि : 25-09-2024 किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 98184 60101)

☑Koqta कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड माग सूचना CIN No. U67120RJ1996PLC011406 कॉपॉरेट कार्यालय : एस-1 गोपालवाडी, अजनेर पुलिया के पास, मेट्रो पिलर नंबर 143, जयपुर-302001, राजस्थान, मारत । दूरमाष: +91 141 6767067 **पंजीकृत कार्यालय** : ओगटा हाउँस, आजाद मोहरूला, बिजयनगर–305624

राजस्थान, भारत । ईमेल : info@kogta.in । www.kogta.in वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सुचना

ऋण खाता सं./एनपीए दिनांक

₹. 20,07,817/-

व्यारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने कोगटा फाइनेशियल (इंडिया) लिमिटेड से नीचे दिए गए प्रत्यामृत ऋणों का लाम उदाया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं औ सह-उधारकर्ताओं के ऋण को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रत्यामृत किया गया है। चूंकि ये संबंधित ऋण समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए थे, इसलिए आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार उनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कोगटा फाइमेंशियल (इंडिया) लिमिटेड को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है और उता राशियों पर भविष्य का ब्याज भी लागू होने के रूप में देय होगा और उसी पर उनकी संबंधित वारीखों से मुल्क लिया जाएगा। प्रत्याभूत परिसंपवियाँ का 13(2) अनुसार बकाया/सूचना दिनांक/ उधारकर्ताओं और

	राजय सा कालाना, हाथा नाहर प्रताप नगर, जाधपुर, राजस्थान - 342001 मो 9636003352 <u>इसके अतिरिक्त</u> - मैसर्स राहुल बिल्डिंग मटेरियल जरिए प्रोपराइटर श्री कवर लाल धोलियान मरिजद के सामने, प्रताप नगर जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 9636003352 2. श्रीमती मीरा के (सह-आवेदक / बंधककर्ता) पत्नी श्री कवर लाल संजय सी कॉलोनी, हाथी नाहर प्रताप नगर, शमशान रोड, जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 9636003352 3. श्री जीवराज डी (जमानतदार) पुत्र श्री ढाला राम नाथो की बगेची के पीछे सिवाची गेट जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 8769196508 <u>इसके अतिरिक्त</u> - श्री जीवराज डी पुत्र श्री ढाला राम 1740 महेश सेन हाई स्कूल सूरसागर, तहसील जोधपुर जोधपुर, राजस्थान - 342001 मो 8769196508	(रुपये बीस लाख सात हजार आठ सी सत्रह मात्र) दिनांक 12.08.2024 तक/ सूमना दिनांक 12.08.2024/ 0000101534/03.08.2022	आवटन न. 613 य दिनाक 11.02.2013 स्थित संजय ''सी'' कॉलोनी, वार्ड नं. 18, प्रताप नगर, जोधपुर, जिला जोधपुर । माप - पूर्व 37 फीट, पश्चिम 37 फीट, उत्तर 20 फीट, दक्षिण 17 फीट कुल क्षेत्रफल 684.50 वर्ग फीट (70. 05 वर्ग मीटर) नगर निगम जोधपुर, राजस्थान हारा जारी किया गया व श्री कवर लाल पुत्र नर सिंह व श्रीमती मीरा देवी पत्नी कवर लाल और इसे पंजीकृत किया गया 17/12/2018 बुक नं. 1, जिल्द नं. 218, पेज नं. 177 पर उप-पंजीयक के समक्ष (IV), जोधपुर, राजस्थान सम्पत्ति की चारों सीमाओ के भीतर - पूर्व - नरसिंह, पश्चिम - जसोदा बाई, उत्तर - लन/रोड, दक्षिण-पहाडी
ı	1. श्री पारस नाथ योगी (आवेदक / बंधककर्ता) पुत्र श्री जेठू	रु. 20,00,142/-	आवासिय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग पट्टा नं.
	नाथ योगी ग्राम बामनी, तहसील आसींद दांतरा, भीलवाड़ा,	(रुपये बीस लाख एक सौ क्यालीस	1, प्रस्ताव नं. 125, मिसल नं. 269 दिनांक 18.
	राजस्थान - 311301 मो 9950977308 इसके अतिरिक्त - श्री	मात्र) दिनांक 10,08,2024 तक/	07.2018 को श्री पारस नाथ योगी पुत्र जेठू

नाथ यो नाथ शू स्टोर जरिए प्रोपुराइट्र श्री पारस नाथ योगी गांधी सूचना दिनांक 12.08.2024/ चौक, सदर बाजार, आसींद भीलवाड़ा, राजस्थान - 311301 मो.- 9950977308 श्रीमती लाडू देवी (सह-आवेदक) पत्नी श्री पारस नाथ योगी

सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ता

1. श्री कवर लाल (आवेदक/बंधककर्ता) पुत्र श्री नरसिंह लाल

ग्राम बामनी, तहसील आसींद दांतरा भीलवाडा, राजस्थान -311301 मो.- 9024892558 3. श्री दिनेश नाथ वोगी (जमानतदार) पुत्र श्री चुन्नी नाथ योगी एसएच. 07 सूर्यलोक अपार्टमेंट बीं व सी सीएचएस लिमिटेंड जे.पी नगर रोड भायंदर पश्चिम, थाने, महाराष्ट्र -401101 मो. 9820622057 इसके अतिरिक्त - श्री दिनेश नाथ योगी पुत्र श्री चुन्नी नाथ योगी ग्राम बामनी, तहसील आसींद

दांतरा, भीलवाँडा, राजस्थान-311301 श्री महबूब खान (आवेदक) पुत्र श्री रहमान खान तेलियों का वास, केरू मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.-9478512557 इसके अतिरिक्त - केजीएन सेंड स्टोन एक्सपोर्ट्स जरिए प्रोपराइटर श्री महबूब खान तेलियों का बास, केरू जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 9478512557 श्री रहमान खान (सह-आवेदक/ बंधककर्ता) पुत्र श्री

जमालुदीन खान तेलियों की मरिजद के पास केरू, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान-342024 मो.- 9645824525 श्रीमती कमला एम (सह-आवेदक) पत्नी श्री रहमान खान केरू, मंडोर, जोघपुर, राजस्थान- ३४२०२४ मो.- ९६५४८५५५५ श्रीमती फातमा एम (सह-आवेदक) पत्नी श्री महबूब खान

कॅरू, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 9685717521 इसके अतिरिक्त - श्रीमती फातुमा एम पत्नी श्री महबूब खान 334, तेलियों का बास तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर राजस्थान - 342024 मो. - 9685717521 श्री मकासुब खान (सह-आवेदक) पुत्र श्री रहमान खान केरु, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो. 9950460106 <u>इसके अतिरिक्त</u> - श्री मकसुब खान पुत्र श्री

रहमान खान ३३३, सिंधी मुसलमान का बास, केरू जिला जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 9950460106 श्री जावेद खान गौरी (सह-आवेदक) पत्र श्री रहमान खान केरू, मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो.- 8947821225 श्री इरफान बी (जमानतदार) पुत्र श्री बाब खान केक.

₹. 20,05,422/-

0000152160/03.02.2023

(रुपये बीस लाख पांच हजार चार सौ बाईस मात्र) दिनांक 08.08.2024 तक/ सूचना दिनांक 12.08.2024/ 0000085376/07.05.2023

अचल सम्पत्ति / आवास मृखंड के सभी अभिन्न अंग जिस पर पट्टा नं. 129, मिसल नं. 94/08-09 दिनांक 20.08.2009 स्थित ग्राम केरू, ग्राम पंचायत केरू, पंचायत समिति मंजोर, तहसील व जिला जोधपुर पट्टा 20.08. 2009 को जारी किया गया व ग्राम पंचायत केरू के जरिए नवीनिकरण 22.06.2015 को किया गया, पंचायत बैठक प्रस्ताव नं. 5 दिनांक 29. 06.2015 को पंजिकत किया गया, बुक नं. 1 जिल्द नं. 1389, पृष्ठे नं. 34 पर उप रॅजिस्ट्रार (II) जोधपुर, राजेरथान श्री रहमान खान पुत्र जमाल्हीन खान के स्वामित्व में किया गया क्षेत्रफल - 785,77 वर्ग गज बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाओ के भीतर - पूर्व - रास्ता, पश्चिम -सय्यद परवेज की सम्पत्ति, उत्तर - बाबू खान

पुत्र जमाल खान की सम्पत्ति, दक्षिण - मूसे

खान पुत्र दीन खान की सम्पत्ति

आवासिय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग,

की माप लंबाई व चीड़ाई 64X(19+22)/2

कुल क्षेत्रफल 1312 वर्ग फीट है स्थित ग्राम

बोंमनी, ग्राम पंचायत बोरेला, पंचायत समिति

आसींद, जिला- भीलवाडा, राजस्थान

पंजीकृत 31.07.2018, बुक नं. 1, जिल्द नं. 63, पेज नं. 35 उप पंजीयक आसिंद के समक्ष,

भीलवाडा, राजस्थान सम्पत्ति की चारों

सीमाओं के भीतर - पूर्व - नहर उसके बाद

रास्ता, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - प्रभुनाथ

/ जेंद्रनाथ, दक्षिण - मेवानाथ / वगद्रनाथ

मंडोर, जोधपुर, राजस्थान - 342024 मो. - 8442001578 र्चकि आपको उस प्रते पर भेजे गए नोटिस जिसमें आप मूल रूप से रहते हैं / व्यवसाय करते हैं / व्यक्तिगत रूप से लाम के लिए काम करते हैं , हमें वापस आ गए हैं, इसलिए हम इस नोटिस को प्रकाशित करने के लिए विवश हैं। आपको उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के 60 दिनों के मीतर अपनी संबंधित तारीखों और अन्य लागतों, शुल्कों आदि र अनुबंधित ब्याज दर के साथ उपर्यंक्त देयता का निवंहन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर केएफरल उपरोक्त अधिनियम की घारा 13(4) के तहल सर्वी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। उधारकर्ती का ध्यान प्रतियुत्ति आस्तियों के छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर दिलाया जाता

है। आफको यह भी च्यान में रखा जाता है कि उपरोक्त ओंधेनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, आप उपरोक्त सुरक्षित संपन्तियों को बिक्की, पहे या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेंगे।

विनांक : 27.09.2024 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : राजस्थान कोगटा फाइनेंशियल (इंडिया) लिमिटेड

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) निवम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (६) के खंड (ए) के मामले में, के लिए विज्ञापन हाइडाइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

का पंजीकृत कार्यालय 1510 और 1511, चिरंजीव टॉवर, नेहरू प्लेस, दक्षिणी विल्ली, दिल्ली- 110019 में स्थित है, के मामले रतदद्वारा आम जनता को सार्वजनिक सचना दी जाती है कि तथा मामले में वह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक। उत्तरी क्षेत्र को कंपनी अधिनियम

फर्स्टप्रॉजेक्ट लाइफ इंडिया फाउण्डेशन CIN: U64990DL2021NPL381913 जिसका पंजीकृत कार्यालयः एच. नं. ८, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, करावल नगर, समापुर, दिल्ली

13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के **पते**: बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-

पंजीकृत कार्यालयः एच. नं. ८, शहीद भगत सिंह कॉलोनी करावल नगर, समापुर, दिल्ली भारत-110094

स्थानः दिल्ली (निदेशक) DIN: 10248086

CIN: U29253DL2015PTC279516 Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code,

BASIS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS"

No.		Process	(Amount in Rs.)
	conditions for this offer is as	(Complete details and terms and presented in the Process Information .09.2024 which shall be available at rsigned/Liquidator)	9,30,000/-
	EMD/ Payment at the time of su	bmission of Bid	1,00,000/-
Las	Date to Apply: 12.10.2024	Inspection at Liquidator's office ti	11:

The Liquidator may in his absolute discretion, modify, cancel, update, amend or

irp.jarvis@gmail.com or phone no. +91-9810190768

Liquidator of M/s Jarvis Infratech Pvt. Ltd. (in Liquidation)

Place: Noida Date: 25.09.2024

प्रपत्र फॉर्म - ए - सार्वजनिक घोषणा भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियम 14 के अंतर्गत,

	NIMIK.	1.1.1.1.1.1
-	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	हरेऑन सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिश्रि	15 जनवरी 2015
	प्राधिकरण जिसके तहत कॉपॉरेंट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार
100	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U74140DL2015PTC275518
	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पतैट नंबर 1005ए, 10वीं मंजिल, इंद्र प्रकार बिल्डिंग प्लॉट नंबर 21, बाराखंभा रोड, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, भारत -110001
100	कॉरपोरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाला प्रारंग होने की तिथि	24 सितंबर 2024
	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	सुश्री मनीषा रावत ए-1/बी. तीसरी मंजिल, टी-02, सेवटर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 ई-मेल: manisharawatfcs@gmail.com फोन: 0120-4227699 पंजीकरण संख्या: IBBUIPA-002/IP-N00233/2017-18/10684
2	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24 अक्टूबर 2024

मनीषा रावत

www.readwhere.com